



For Restricted Use Only



टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड  
THDC INDIA LIMITED

# शयत



सतर्कता विभाग, टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड



## VISION

“An integrated global energy entity delivering sustainable solutions to meet India's net-zero ambitions”



## MISSION

- Making available clean and affordable energy from diverse sources.
- Explore emerging energy technologies and deliver sustainable solutions of scale to enable smooth transition.
- Building organizational capabilities to embrace change through enablement and development of people.
- Conforming to the highest ethical standards and integrity in business activities.
- Acting in a socially responsible manner, committed to the cause of environment and people
- Adopting best practices and state-of-the-art technology for higher productivity and efficiency.
- Promoting creativity and innovation for optimal utilization of resources.



## VALUES

### ASPIRE

A : Accountability

S : Sustainability

P : Passion

I : Innovation

R : Respect

E : Ethics



### MESSAGE

I am pleased to know that the Central Vigilance Commission is observing Vigilance Awareness Week on the theme "Vigilance: Our Shared Responsibility" from 27<sup>th</sup> October to 2<sup>nd</sup> November, 2025.


This year's theme serves as a timely and powerful reminder that the fight against corruption is not the responsibility of institutions alone. It is a collective duty that calls upon every citizen to uphold the values of ethics, honesty and accountability in all spheres of life. I am confident that the CVC's proposed public awareness campaign during Vigilance Awareness Week will go a long way in sensitising all stakeholders and the people.

Let us use this occasion to reaffirm our commitment to integrity and take a collective pledge to uphold the highest standards of ethics in public life.

I extend my greetings to all those associated with the organization of Vigilance Week at the Central Vigilance Commission. I wish the campaign every success.



(Droupadi Murmu)



उपराष्ट्रपति  
भारत गणराज्य  
VICE-PRESIDENT  
REPUBLIC OF INDIA

29<sup>th</sup> September 2025

**MESSAGE**

I am pleased to know that the Central Vigilance Commission is observing the Vigilance Awareness Week every year as a tribute to Bharat Ratna Sardar Vallabhbhai Patel. This year the event is being commemorated from 27<sup>th</sup> October 2025 to 2<sup>nd</sup> November 2025 on the theme –

**सतर्कता: हमारी साझा जिम्मेदारी**

**Vigilance: Our Shared Responsibility**

The 'Vigilance Awareness Week' has the objective of promoting integrity, transparency and accountability in public life through campaigns. I am pleased to know that numerous activities and programmes have been planned during the week by the Commission to solicit participation of all the stakeholders in the process of governance. The programmes designed for schools and colleges will certainly go a long way in instilling an ethos of ethics and integrity amongst those who are going to be the future of this Nation.

On this note, I am reminded of a Kural by the Great Tamil Poet Thiruvalluvar - ஒழுக்கமும் வாய்மையும் நானும்இம் முன்றும் இழுக்கார் குடிப்பிறந் தார் - which emphasizes that good manners, truthfulness and modesty are essential values of a noble person. Let us all strive to adopt a value system in our day-to-day life and make this Nation prosper! I urge all the citizens to avidly partake in the events organized during the vigilance awareness week.

I am confident that this awareness week will motivate the citizens to imbibe the principles of ethics and integrity in their daily lives.

  
(C. P. Radhakrishnan)

**Courtesy:- CVC Website**



प्रधान मंत्री  
Prime Minister

### MESSAGE

It is a pleasure to learn about the Vigilance Awareness Week being organised by Central Vigilance Commission from October 27-November 2, 2025. The theme of the Week - “Vigilance: Our shared responsibility” is timely and relevant.

Transparency and accountability are central to a nation’s growth and development. When institutions act with openness and responsibility, trust strengthens, governance improves and development becomes sustainable. Transparent systems ensure fairness, curb corruption and build a strong foundation for inclusive progress.

It is the collective duty of every citizen to fight for and uphold the ideals of ethics and integrity. Ethical conduct is a national imperative that strengthens democracy.

Powered by reforms, innovation and technology-driven governance, India is fast emerging as a leading global economy. Every citizen’s active participation is the key to building a future of trust, integrity and collective progress.

May such efforts go a long way in spreading awareness and nurturing the ideals of ethics in public life.

Greetings and best wishes for the success of Vigilance Awareness Week.

(Narendra Modi)

New Delhi

आश्विन 26, शक संवत् 1947 **Courtesy:- CVC Website**  
18 October, 2025

मनोहर लाल  
MANOHAR LAL



आवासन और शहरी कार्य मंत्री एवं  
विद्युत मंत्री  
भारत सरकार  
Minister of  
Housing and Urban Affairs; and  
Minister of Power  
Government of India



### संदेश

केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा आयोजित 'सतर्कता जागरूकता सप्ताह', सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के मूल्यों को सुदृढ़ करने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। इस वर्ष यह सप्ताह 27 अक्टूबर से 2 नवम्बर, 2025 तक "सतर्कता: हमारी साझा ज़िम्मेदारी" विषय पर आयोजित किया जा रहा है।

सतर्कता केवल किसी एक संस्था या व्यक्ति की ज़िम्मेदारी नहीं है, बल्कि यह हम सभी का सामूहिक कर्तव्य है। जब प्रत्येक नागरिक अपने कार्य में निष्ठा, पारदर्शिता और नैतिकता को अपनाता है, तभी सशक्त, उत्तरदायी और ईमानदार समाज का निर्माण संभव होता है।

हम सभी को यह संकल्प लेना चाहिए कि हम अपने-अपने दायित्वों का निर्वहन पूर्ण ईमानदारी एवं निष्पक्षता से करेंगे। साथ ही, नागरिकों को भी यह प्रेरणा दें कि वे अष्टाचार-मुक्त और जवाबदेह शासन प्रणाली के निर्माण में सक्रिय भागीदार बनें।

आइए, इस सतर्कता जागरूकता सप्ताह को एक प्रेरक अभियान के रूप में मनाएँ और यह सुनिश्चित करें कि सत्यनिष्ठा और पारदर्शिता हमारे व्यक्तिगत तथा संस्थागत आचरण का अभिन्न हिस्सा बने।

मनोहर लाल

(मनोहर लाल)



केन्द्रीय सतर्कता आयोग  
CENTRAL VIGILANCE COMMISSION



सतर्कता भवन, जी.पी.ओ. कॉम्प्लैक्स,

ब्लॉक-ए, आई.एन.ए., नई दिल्ली-110023

Satarkta Bhawan, G.P.O. Complex,

Block A, INA, New Delhi-10023

सं./No..... 025/VGL/047

दिनांक / Dated... 23.10.2025

**MESSAGE**

**Vigilance Awareness Week (27<sup>th</sup> October to 2<sup>nd</sup> November, 2025)**

Every year, the Central Vigilance Commission observes Vigilance Awareness Week (VAW) reaffirming Commission's commitment to promote integrity and probity in public life. The theme for this year is:

**“सतर्कता: हमारी साझा जिम्मेदारी”**

**“Vigilance: Our Shared Responsibility”**

The theme for this year evokes sense of collectivism in sharing the responsibility for transparency, ethics and integrity in governance. It is believed that this participative approach will foster these values and encourage all stakeholders to be active participants in ethical governance.

VAW is being observed from 27<sup>th</sup> October to 2<sup>nd</sup> November of 2025. The Commission solicits participation of all Ministries/ Departments/ Organizations of the Central Government to organize activities including outreach programs for public/ citizens relevant to the theme to bring about maximum public participation.

Since last few years, the Commission has been running a three-month campaign leading upto the Vigilance Awareness Week. This year, the campaign associated with Vigilance Awareness Week is undertaken from 18.08.2025 to 17.11.2025 with focus on five areas namely Disposal of complaints received before 30.06.2025, Disposal of pending cases, Capacity Building Programs, Asset Management, and Technological initiatives. It is believed that focus on these areas will have meaningful impact in Vigilance Administration.

The Commission is also releasing booklet on Preventive Vigilance Initiatives during VAW 2025 to disseminate information regarding best practices adopted by select organizations.

The Commission appeals to all citizens and stakeholders to come together and work towards promotion of integrity and enhancing probity and transparency in all aspects of life.

  
(A.S. Raheev)  
Vigilance Commissioner

  
(Praveen K. Srivastava)  
Central Vigilance Commissioner



# THDC India Limited

## Observance of Vigilance Awareness Week-2025

“सतर्कता : हमारी साझा जिम्मेदारी”  
“Vigilance: Our Shared Responsibility”

From 18<sup>th</sup> August' 2025 to 17<sup>th</sup> November' 2025



Vigilance Department

Follow us:- [f](#) @THDCIL 24x7 [X](#) @THDCIL\_MOP [@THDC-India-limited](#) [@THDCIL India Limited - Official](#) [in](#) @THDC India Limited-Official



**स्व. राजीव कुमार विश्नोई**  
**पूर्व अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक**  
**टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड**

## संदेश

किसी संगठन की सफलता केवल उसकी नीतियों या संसाधनों से नहीं, बल्कि उसमें कार्यरत प्रत्येक व्यक्ति की निष्ठा, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व की भावना से निर्धारित होती है। सतर्कता इसी भावना का प्रतीक है, यह केवल एक प्रशासनिक तंत्र नहीं, बल्कि एक नैतिक संकल्प है जो संगठन को उत्कृष्टता की ओर अग्रसर करता है।

आज के परिवेश में, जहाँ तकनीक और नीतियाँ निरंतर बदल रही हैं, पारदर्शिता और जवाबदेही का महत्व और भी अधिक बढ़ गया है। ऐसे समय में, प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी की यह जिम्मेदारी बनती है कि वह अपने कार्य में उच्चतम स्तर की सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता और ईमानदारी बनाए रखें। सतर्कता को प्रायः निगरानी या अनुशासनात्मक प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है, परंतु इसका वास्तविक स्वरूप इससे कहीं व्यापक है।

सतर्कता संगठन की आंतरिक शक्ति है, जो कार्य संस्कृति को नैतिकता और पारदर्शिता से जोड़ती है। यह हमें अपने निर्णयों में विवेकपूर्ण, निष्पक्ष और परिणामोन्मुख बनने की प्रेरणा देती है। सतर्कता का उद्देश्य केवल त्रुटियों की पहचान करना नहीं, बल्कि ऐसी प्रणाली विकसित करना है जहाँ त्रुटियों की संभावना न्यूनतम रहे। यह निवारक सतर्कता (Preventive Vigilance) का मूल भाव है, जो सुधार, सीख और आत्मावलोकन पर आधारित है।

इस वर्ष का विषय- "सतर्कता: हमारी साझा जिम्मेदारी" इस बात पर बल देता है कि ईमानदारी और पारदर्शिता को केवल किसी एक विभाग की जिम्मेदारी नहीं माना जा सकता। यह प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक टीम और प्रत्येक स्तर की जिम्मेदारी है। सतर्कता तभी प्रभावी होती है जब संगठन के सभी सदस्य इसे एक साझा मूल्य के रूप में अपनाते हैं। प्रबंधन को चाहिए कि वह निर्णय-प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और नीतिप्रक बनाए; वहीं कर्मचारियों को अपने कार्य के प्रति पूर्ण निष्ठा और जवाबदेही दिखानी चाहिए। हम सभी को यह समझना होगा कि भ्रष्टाचार या अनियमितता केवल किसी व्यक्ति की गलती नहीं होती, बल्कि यह प्रणालीगत कमजोरी का भी परिणाम होती है। अतः, प्रक्रियाओं में सुधार, समयबद्ध निर्णय, और स्पष्ट जवाबदेही सुनिश्चित करना हम सबकी साझा जिम्मेदारी है।

सतर्कता का सबसे मजबूत स्तंभ है नैतिकता (Integrity)। यह केवल बाहरी निगरानी से नहीं, बल्कि आत्म-अनुशासन से उत्पन्न होती है। जब प्रत्येक कर्मचारी स्वयं के भीतर ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा को स्थापित करता है, तभी संगठन में वास्तविक सतर्कता का वातावरण निर्मित होता है। ईमानदार आचरण न केवल संगठन की साख बढ़ाता है, बल्कि समाज में भी विश्वास का भाव स्थापित करता है। एक पारदर्शी और उत्तरदायी संस्था ही देश के विकास में सच्चा योगदान दे सकती है।

हर वर्ष आयोजित सतर्कता जागरूकता सप्ताह हमें यह अवसर देता है कि हम अपने कार्य, आचरण और निर्णयों की समीक्षा करें। यह केवल औपचारिक आयोजन नहीं, बल्कि आत्ममंथन और नवीनीकरण का समय है। इस अवसर पर मैं यह विश्वास व्यक्त करता हूँ कि हमारे सभी अधिकारी एवं कर्मचारी सतर्कता के इस सामूहिक भाव को अपने कार्य एवं व्यवहार में आत्मसात करेंगे। हमारा प्रयास केवल नियमों के पालन तक सीमित न रहे, बल्कि उसे नैतिक आचरण और सदाचार की संस्कृति में परिवर्तित करें। सतर्कता हमारी साझा जिम्मेदारी है, और जब हम सब मिलकर इस जिम्मेदारी को निभाते हैं, तब ही हम एक पारदर्शी, जवाबदेह और सशक्त संगठन के रूप में आगे बढ़ सकते हैं।

इस अवसर पर सतर्कता विभाग द्वारा सतर्कता पुस्तिका प्रकाशित करने के लिए सतर्कता विभाग के प्रयासों की सराहना करने के साथ-साथ सतर्कता जागरूकता सप्ताह-2025 के सफल आयोजन हेतु शुभकामनायें प्रेषित करता हूँ।



(राजीव कुमार विश्नोई)



रश्मिता झा, (आर.एस.)

मुख्य सतर्कता अधिकारी  
टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड

## संदेश

किसी भी संगठन की वास्तविक क्षमता मात्र उसकी भौतिक संपदा, तकनीकी दक्षता या प्रशासनिक ढांचे में निहित नहीं होती, बल्कि उसकी आत्मा उन मूल्यों में निहित होती है जिनके आधार पर वह कार्य करता है, ईमानदारी, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व इसके तत्व हैं। ये ही वे आधारस्तंभ हैं जो किसी संस्था को स्थायित्व, सम्मान और विश्वसनीयता प्रदान करते हैं। इन मूल्यों को बनाए रखने में "सतर्कता" की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। सतर्कता का अर्थ केवल भ्रष्टाचार पर नियंत्रण या अनियमितताओं की जांच नहीं है, बल्कि यह एक निरंतर आत्ममंथन और सुधार की प्रक्रिया है। यह हमें न केवल दूसरों के कार्यों पर नज़र रखने के लिए प्रेरित करती है, बल्कि स्वयं अपने आचरण, निर्णयों और कार्यप्रणालियों की भी समीक्षा करने की चेतना एवं विवेक प्रदान करती है।

सतर्कता का उद्देश्य संगठन में ऐसी कार्य संस्कृति का निर्माण करना है जिसमें प्रत्येक कर्मचारी अपने कार्य के प्रति निष्ठावान, प्रत्येक निष्पक्ष और पारदर्शी रहे। जब कर्मचारी यह समझता है कि उसके निर्णय, संगठन की छवि और विश्वसनीयता को प्रभावित करते हैं, तब वास्तविक अर्थों में सतर्कता सशक्त बनती है। आज के प्रतिस्पर्धी और गतिशील परिवेश में जहाँ संसाधन और संसाधनों का विस्तार है, वहाँ सतर्कता केवल एक औपचारिक विभागीय क्रिया नहीं, बल्कि एक साझा जिम्मेदारी बन जाती है। हम सबका सामूहिक प्रयास यह है कि हम अपने निर्णयों में पारदर्शिता, अपने व्यवहार में सत्यनिष्ठा और अपने कार्य में उत्तरदायित्व बनाए रखें। हम यह भी समझें कि सतर्कता का अर्थ, भय का वातावरण बनाना नहीं, बल्कि विश्वास और सुधार की भावना विकसित करना है। जब कोई कर्मचारी त्रुटि की संभावना देखकर समय रहते चेतावनी देता है या सुधार का सुझाव देता है, तो वह संगठन के प्रति अपनी निष्ठा का परिचय देता है। यही सकारात्मक सतर्कता है, जो रोकथाम को दंड से अधिक महत्व देती है।

सतर्कता जागरूकता सप्ताह के वर्तमान वर्ष का विषय "सतर्कता: हमारी साझा जिम्मेदारी हमें यह स्मरण कराता है कि यह केवल एक व्यक्ति या एक विभाग का कार्य नहीं, बल्कि संगठन एवं परिवेश की सामूहिक

नैतिक प्रतिबद्धता है। हम सब जब मिलकर ईमानदारी और निष्पक्षता के मूल्यों को अपने-अपने स्तर पर अपनाते हैं, तब ही संगठन का संपूर्ण तंत्र सुवृद्ध और विश्वसनीय बनता है।

हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि अक्सर भ्रष्टाचार या अनियमितता बड़े निर्णयों अथवा छोटे में नहीं, बल्कि लापरवाहियों या प्रक्रियाओं की अनदेखी से जन्म लेती है। इसलिए, सतर्कता का मूल मंत्र है, "सतत सावधानी।" जब हम प्रत्येक स्तर पर नियमों और प्रक्रियाओं का पालन निष्ठापूर्वक करते हैं, तो स्वतः ही पारदर्शिता और विश्वास का वातावरण बनता है। एक सच्चा सतर्क अधिकारी या कर्मचारी वह है जो न केवल गलत कार्यों का विरोध करे, बल्कि सही कार्यों का भी समर्थन करे। हमें चाहिए कि हम संगठन में सतर्क एवं भयरहित होकर सुधार के सुझाव दें, प्रणाली की कमजोरियों की पहचान करें, और एक बेहतर, उत्तरदायी व्यवस्था के निर्माण में सहयोग दें।

स्मरण रहे कि, ईमानदारी केवल व्यक्तिगत गुण नहीं, बल्कि संस्थागत मूल्य है। इसे बनाए रखना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। हमें ऐसी संस्कृति बनानी होगी जहाँ ईमानदार आचरण को सम्मान मिले, निष्पक्ष निर्णयों को प्रोत्साहन मिले और नियमों का पालन करना संगठन की पहचान बने। राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी कहते थे कि साधन और साध्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यदि कोई साधन का ध्यान रखेगा, तो साध्य अपने आप आ जाएगा। जैसे बीज से वृक्ष निकलता है, वैसे ही साध्य साधनों से ही उत्पन्न होता है। सतर्कता का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि इसे केवल एक सप्ताह या आयोजन तक सीमित न रखें। इसे अपने दैनिक कार्यकलापों का साधन बनाएं, अपने हर निर्णय, हर प्रक्रिया और हर संवाद में कर्तव्यनिष्ठा को आधार बनाएं। जब सतर्कता हमारे कार्य करने की आदत बन जाती है, तब प्रशासनिक पारदर्शिता का मार्ग प्रशस्त होता है और ईमानदारी का मार्ग प्रशस्त होते हुए समुचित विकास की प्राप्ति होती है।

इस अवसर पर सभी यह संकल्प लें कि हम सतर्कता को एक सकारात्मक और रचनात्मक उपकरण के रूप में अपनायेंगे और सामूहिक रूप से एक उत्तरदायी, पारदर्शी और नैतिक कार्यसंस्कृति का निर्माण करेंगे, ताकि हमारा संगठन न केवल कार्यकुशलता में, बल्कि नैतिकता में भी एक आदर्श उदाहरण बने।

८८%  
 रश्मिता झा

## उद्घोषणा

यह बुकलेट सामान्य मार्गदर्शन के उद्देश्य से प्रकाशित की गयी है एवं केवल सरकारी उपयोग के लिए है। इसे न तो किसी सरकारी सन्दर्भ में उपयोग किया जाए और न ही साक्ष्य हेतु न्यायालय में पेश किया जा सकता है। जहां कहीं इसका सन्दर्भ देना आवश्यक हो, उस विषय से सम्बंधित मूल आदेशों का ही दिया जाए।

## DISCLAIMER

This booklet is purely for the purpose of providing guidelines and is intended for official use only and should not be quoted as authority in any official reference or produced in a Court. A reference, whenever necessary, should always be made to the original orders on the subject.

## Contents

Sl. No.	Description	Page No.
<b>Part-I</b>	<b>Systemic Improvements Issued by Vigilance/Projects</b>	
1	विद्युत उपकरण की खरीद करने से सम्बंधित सुधारात्मक परिपत्र   दिनांक : 31/01/2025	01
2	Systemic improvement circular regarding declaration of reasonability' of rates before award of Contracts Dated: 13.03.2025	02
3	Systemic Improvement with regard to Definition of Similar Work. Dated: 31.05.2025	03
4	Systemic Improvement with regard to Job Description Requirements. Dated: 04.06.2025	04
5	Systemic Improvement Circular Regarding Framing of PQ Criteria in Tenders Date: 18-July-25	05
<b>Part -II</b>	<b>New Initiatives taken by Vigilance Department</b>	
1	Inauguration of Online Complaint Handling Mechanism.	06-08
2	Certification of Anti Bribery Management System (ABMS) to THDCIL	09
<b>Part-III</b>	<b>Events of Vigilance Department</b>	
1	Annual Vigilance Meet-2025	10
2	1 <sup>st</sup> Quarterly Review Meeting	11
3	2 <sup>nd</sup> Quarterly Review Meeting	12-13
<b>Part-IV</b>	<b>Activities - Vigilance Awareness Week-2025</b>	
1	Inauguration of Vigilance Awareness Campaign 2025.	14-16
2	Awareness Campaign during Morning Assemblies of Schools .	17-19
3	Competitions organized in schools.	20-22
4	Sensitization programs organized for Workers.	23-25
5	Outreached awareness programs organized for Gram Sabhas/Villagers.	26
<b>Part-V</b>	<b>Articles/Poems by THDC Employees/their relatives</b>	
1	ईमानदारी के साथ संवाद: सामूहिक प्रतिबद्धता के रूप में सतर्कता- डॉ. काजल परमार	27-28
2	ईमानदारी: ईश्वर की सच्ची भक्ति- डॉ. आशुतोष कुमार आनंद	29

3	सतर्कता - हमारी साझा ज़िम्मेदारी- दवनीत कौर	30
4	From Rules to Culture: How HR Strengthens Vigilance- Robin Antony	31
5	क्रांति का शंख- अजय रत्नड़ी	32-33
6	सतर्कता हमारी साझा ज़िम्मेदारी- नीलम काला चमोली,	34-35
7	The Role of Technology in Preventive Vigilance -Dileep Kumar Dwivedi & Dr. Prabhat Kumar	36-40
8	सतर्कता: हमारी साझा ज़िम्मेदारी- दिनेश चन्द्र भट्ट	41
9	सतर्कता और जागरूकता- जी.एस. चौहान	42
10	समाज निर्माण में सतर्कता की भूमिका - मोहित गोयल	43-44
11	Vigilance: Our Shared Responsibility -Smt. Shella	45-47
12	सतर्कता - हमारी सामूहिक ज़िम्मेदारी – श्रीमती प्रिया गोयल	48
13	आचरण में सतर्कता-आदित्य नारायण मिश्रा	49
14	सतर्कता हमारी साझा ज़िम्मेदारी- श्रीमती अमरुथा नगराले	50
<b>Part-VI</b>	<b>Essay written on theme by School Students During Vigilance Awareness Campaign-2025</b>	
1	नंदिनी पुण्डीर, साक्षी, कक्षा – 12 <sup>th</sup> , राजकीय बालिका इण्टर कॉलेज नरेन्द्रनगर	51-52
2	Anchal Rawat, Class – XII, G.G.I.C. Narendra Nagar	53-54
3	साक्षी, कक्षा – 10 <sup>th</sup> , राजकीय बालिका इण्टर कॉलेज नरेन्द्रनगर	55-56
4	Aditi Bhatt, Class- 11 <sup>th</sup> , Narendra Mahila Vidhyalay Inter Collage, Bhagirathi Puram, Tehri	57-58
5	Teena, Class- 8 <sup>th</sup> , Tehri Bandh Pariyojna Inter Collage, Bhagirathi Puram, Tehri	59-60
6	कनिका नेगी, कक्षा 7 <sup>th</sup> , जी. जी. आई.सी. नरेंद्र नगर	61
7	वैष्णवी उनियाल, कक्षा 8 <sup>th</sup> , जी. जी. आई.सी. नरेंद्र नगर	62-63
8	राधिका पुंडीर, , कक्षा 8 <sup>th</sup> , जी. जी. आई.सी. नरेंद्र नगर	64-65

**PART-I**  
**SYSTEMIC**  
**IMPROVEMENTS**  
**ISSUED BY**  
**VIGILANCE/PROJECTS**



# THDC India Limited

## Observance of

### Vigilance Awareness Week-2025

“सतर्कता : हमारी साझा जिम्मेदारी”  
“Vigilance: Our Shared Responsibility”

From 18<sup>th</sup> August<sup>1</sup> 2025 to 17<sup>th</sup> November<sup>1</sup> 2025

Transparency is not  
the work of a department;  
it's the culture of an organisation.



Vigilance Department

पत्रांक : टीएचडीसी/ऋषि०/ सतर्कता/सुधारात्मक परि./एफ-82/2024-25/1430,

दिनांक : 31/01/2025

### सुधारात्मक परिपत्र

विषय: विद्युत उपकरण की खरीद करने से सम्बंधित सुधारात्मक परिपत्र।

सतर्कता विभाग द्वारा निवारक सतर्कता के एक भाग के रूप में विभिन्न परियोजना स्थलों के साथ साथ टीएचडीसीआईएल के अन्य कार्यालयों / कार्यस्थलों में नियमित रूप से कार्यों/खरीद आदि की औचक निरीक्षण/गहन जांच/ समीक्षा आदि आयोजित की जाती है। इस क्रम में एक परियोजना पर विद्युत उपकरण की खरीद करने से सम्बंधित एक औचक निरीक्षण के दौरान पाया गया कि :

*Procurement Department has purchased 3 BEE star rating AC instead of 5 BEE star rating AC. Whereas as per MoF (Ministry of Finance) OM (Office Memorandum) No. 26/6/12-OPD dated 21/01/2013 (P-25) and as per Terms and Condition of STC (Special Terms and Condition) of GeM, energy efficient electrical appliances are to be procure of minimum 5 BEE star rating under normal conditions where annual usages are expected to be more than 1000 Hrs.*

अतः इस सम्बन्ध में यह अनुरोध किया जाता है कि भविष्य में प्रोक्योरमेंट विभाग/सी० एण्ड एम० एम० विभाग द्वारा सामग्री/ सर्विस क्रय करते समय भारत सरकार / राज्य सरकार द्वारा जारी प्रासंगिक दिशा निर्देशों का पालन करते हुए अनुमानित लागत, टीएचडीसीआईएल प्रोक्योरमेंट नीति/कार्य मैनुअल/डी० ओ० पी० एवं अन्य दिशानिर्देशों का सख्ती से अनुपालन किये जाने हेतु सम्बंधित विभाग से जुड़े अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करे।

यह पत्र सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त जारी किया जा रहा है।

संलग्न: MOF (Ministry of Finance) OM (Office Memorandum) No. 26 / 6/12-OPD dated 21/01/2013 की छाया प्रति सुलभ सन्दर्भ हेतु संलग्न है।

-५-

सतीश कुमार आर्य  
उप मुख्य सतर्कता अधिकारी

No. THDCIL/NCR/CC-M-5/ 2862,  
Dated: 13.03.2025

**Circular**

**Sub: Systemic improvement circular regarding declaration of 'reasonability' of rates before award of Contracts**

CTE during recent inspection of one of the Contracts awarded in 2022 has directed to issue a Systemic improvement regarding declaration in Tender Committee (TC) recommendations for award of work that final quoted cost/rates obtained after negotiation/e-RA (if any) is 'reasonable'.

In this regard, please refer Clause No. 7.6.2 in THDCIL Procurement Policy for Works & Services - 2024 and Clause No. 8.10 in THDCIL Procurement Policy for Goods 2024, which is as follows:

**Reasonableness of Prices:**

In every recommendation of the TC for award of contract, it must be declared that the rates recommended are reasonable. The comparison may be made with the approved estimated cost of the works.

In view of the above, the Tender Committee/Authorized officer (in such cases, where TC does not exist), must declare in every recommendation for award of contract that the rates are reasonable.

-૬-

A.V. Narayanan  
GM (Contracts)

No.: THDCIL/Tehri/ED(TC)Sectt/2025-26/29,,  
Dated 31.05.2025

## SYSTEMATIC IMPROVEMENT CIRCULAR

### **Sub.: Systemic Improvement with regard to. Definition of Similar Work.**

During regular inspection of works at Project sites as well as in THDC Offices, it has been observed by Vigilance Department that:

*"At Tehri HPP, during bidding process for one work, definition of similar work was kept very stringent. Due to the stringent PQ requirement, only 2 firms could qualify techno commercially leading to restrictive bidder's participation and noncompetitive bidding."*

In this regard, it is to mention that the Clause 5.3.A.3 of "Policy and procedures for Procurement of Works & Services-2024", says that PQC should be unrestrictive enough SO as not to leave out even one bidder/Contractor.

In view of the above, all HoDs of Tehri Complex are hereby directed to take note of the issue. Policy and guidelines should be followed in true spirit in the bidding process to receive wider participation.

-૬-

L. P. Joshi  
Executive Director (Tehri Complex)

No-THDC/RKSH/GM(HR&A)/2025/289

Date:04.06.2025

### **SYSTEMIC IMPROVEMENT CIRCULAR**

Vide Letter No-टीएचडीसी/ऋषि/सतर्कता सुधारात्मक परि./एफ -82/773 dated 24.04.2024. Vigilance Department had issued Letter regarding "Systemic Improvement with regard to Job Description requirement w.r.t for appointment of Engineer on Fixed Tenn Basis". Vigilance Department had recommended certain systemic improvement, implementing which are hereby once again being reiterated as below to enhance integrity and effectiveness of Engagement process of Manpower on Fixed Tenure Purely on Short Term Basis:

1. **UPDATE JOB DESCRIPTION CRITERIA** Revision of Job Description criteria for engineering positions to explicitly specify the requirement for authentic work experience from reputed companies/registered private company or private limited company or firms/contractors having Class-A category. This will help to attract candidates who have demonstrated their capabilities in reputable work environments. Experience Certificate should have been issued by the authorized signatory of a reputed company/firm/private limited company or class-A category contractor having work experience in power generating stations/ projects. Work Experience certificate issued by an authorized signatory of a reputed company/firm in favour of an applicant should be clearly defined and verified with reference to the period and work done by him/her.
2. **IMPLEMENT VERIFICATION PROCEDURE-** Develop robust procedures for verifying candidate work experience supported with PF details etc. including conducting reference verification. with previous employer.

-6-

(Dr. A.N. Tripathy)  
General Manager (HR & Admn.)

No: THDCIL/RKSH/D(T) Sectt/ 959,  
Date: 18-July-25

### **Systematic Improvement Circular**

#### **Subject: Systemic Improvement Circular Regarding Framing of PQ Criteria in Tenders - regarding**

During the inspection of a work at project, Vigilance Department observed that the definition of "similar work" specified in the Pre- Qualification (PQ) criteria of a tender was kept very stringent. As a result, only 02 firms could qualify techno commercially leading to restrictive bidder's participation & non-competitive bidding.

In this regard, kindly note that as per Clause 5.3.A.3 of THDCIL Policy and procedure for Procurement of Works & Services-2024, "PQ Criteria should be unrestrictive enough so as not to leave out even one capable bidder/ contractor. Otherwise, it can lead to higher prices of procurement/works/services".

Therefore, all HoPs/HoDs shall direct all concerned officials to take note of above observation and ensure the strict compliance of the same along with related guidelines & procedures without fail.

-6-

Bhupender Gupta  
Director (Technical)



**THDC India Limited**

Observance of

# **Vigilance Awareness Week-2025**

**“सतर्कता : हमारी साझा जिम्मेदारी”  
“Vigilance: Our Shared Responsibility”**

**From 18<sup>th</sup> August<sup>1</sup> 2025 to 17<sup>th</sup> November<sup>1</sup> 2025**



**Vigilance Department**

## PART-II

# **New Initiatives taken by Vigilance Department**

## Online Vigilance Complaint Handling System

THDC India Limited has launched its Online Vigilance Complaint Handling System. Sh. R. K. Vishnoi, Chairman and Managing Director (CMD), THDCIL, stated that the new platform empowers individuals to report concerns without fear or hesitation, and it strengthens our institutional resolve to act swiftly and fairly. In an age where governance and ethics must walk hand in hand with technology, THDCIL is determined to be a benchmark of digital vigilance within the power sector.

Ms. Rashmita Jha (IRS), Chief Vigilance Officer (CVO), THDCIL, who played a pivotal role in conceptualizing and driving this initiative, formally inaugurated the Online Vigilance Complaint Handling System at Corporate Office Rishikesh. Speaking on the occasion, Ms. Jha remarked that the system is a step towards institutionalizing ethical culture and responsiveness within our organization. By ensuring ease of access, data confidentiality, and accountability, we are empowering both our internal stakeholders and the public to participate actively in our vigilance ecosystem.

The portal incorporates several advanced features including online and offline complaint registration with a unique tracking ID, role-based access controls for data confidentiality, real-time dashboards for complaint tracking, automatic generation of verification letters, a centralized complaint master database, and seamless integration with internal modules for efficient case handling. Developed through a collaborative effort between the Vigilance and IT departments, the system reflects a shared vision under the leadership of Ms. Jha and is aligned with the Central Vigilance Commission (CVC) guidelines.







## ABMS Certification conferred to THDCIL

THDC India Limited has been conferred the esteemed Anti-Bribery Management System (ABMS) Certification under IS/ISO 37001:2016 by the Bureau of Indian Standards (BIS) for its Corporate Office, Rishikesh, and NCR Office, Kaushambi.

Extending warmest congratulations on this remarkable achievement, Shri R. K. Vishnoi, Chairman and Managing Director, THDCIL underscored that the ABMS Certification marks a significant milestone for THDCIL, enhancing trust among stakeholders, bolstering the company's International reputation, and ensuring greater transparency and competitiveness in today's challenging business environment.

CVO Ms. Rashmita Jha (IRS) highlighted that the certification is a testament to THDCIL's unwavering commitment to integrity, transparency, and sustainable development, reaffirming its resolve to uphold the highest standards of corporate ethics.

The certificate was presented to Ms. Rashmita Jha (IRS), Chief Vigilance Officer, THDCIL, by BIS officers at a special ceremony held at the NCR Office, Kaushambi, on 18th August 2025, in the presence of Executive Director Shri Neeraj Verma, Dy. CVO/GM (Vigilance) Shri Satish Kumar Arya, and senior vigilance officials of THDCIL. Subsequently, the certification was ceremonially presented to Shri R. K. Vishnoi, Chairman and Managing Director, THDCIL, at the Corporate Office, Rishikesh, by Shri Satish Kumar Arya, Dy. CVO/GM (Vigilance), in the august presence of Shri S. S. Panwar, CGM (OMS), and senior officials from the Vigilance and OMS Departments.

The ABMS Certification (IS/ISO 37001:2016) is a globally recognized benchmark that enables organizations to prevent, detect and respond to bribery incidents, thereby reinforcing ethical governance. For THDCIL, this achievement is more than a recognition—it is a step forward in building trust and accountability across all levels.





# THDC India Limited

## Observance of

### Vigilance Awareness Week-2025

“सतर्कता : हमारी साझा जिम्मेदारी”  
“Vigilance: Our Shared Responsibility”

From 18<sup>th</sup> August<sup>1</sup> 2025 to 17<sup>th</sup> November<sup>1</sup> 2025

**Transparency is not  
the work of a department;  
it's the culture of an organisation.**



#### Vigilance Department

## PART-III

# Events of Vigilance Department

## Annual Vigilance Meet-2025

Annual Vigilance Meet 2025 of THDC India Limited held from 25 to 27 March in Alleppey, Kerala. On the occasion, Sh. R.K. Vishnoi. Chairman & Managing Director, THDCIL, reaffirmed the company's unwavering commitment to corporate governance and ethical business practices, emphasizing that vigilance is not just a regulatory necessity but a fundamental pillar of organizational excellence and nation-building.

Sh. Vishnoi also stated that, in THDCIL, an active and forward-thinking Vigilance Department fostering a culture of accountability and trust. Our initiatives in ethical governance not only strengthen our operations but also contribute to the larger vision of a corruption-free, transparent corporate ecosystem. Ethical governance is the bedrock of a sustainable organization. It ensures fairness, builds trust and safeguards the long-term interests of stakeholders.

The program was inaugurated by the Chief Guest, Shallinder Singh, Director (Personnel), in the presence of THDCIL's Chief Vigilance Officer (CVO), Rashmita Jha (IRS). Sh. Shallinder Singh highlighted the importance of capacity-building and employee sensitization in reinforcing vigilance across all levels. He remarked, "Strong ethical foundations lead to long-term every aspect of their professional conduct.

Rashmita Jha. CVO. emphasized the critical role of vigilance in fostering organizational integrity and highlighted the successful observance of Vigilance Awareness Week (VAW) 2024. The campaign, conducted between August and November 2024, focused on the theme "Culture of Integrity for Nation's Prosperity," promoting active participation from employees, stakeholders, and the public.



## First Quarterly Review Meeting

First Quarterly Review Meeting (QRM) of the Vigilance Department for the Financial Year 2025–26 held at HRD Centre, THDC India Limited, Rishikesh on 17.06.2025 with a lamp lighting ceremony.

The meeting was chaired by Ms. Rashmita Jha, Chief Vigilance Officer (IRS), and was attended by Shri S. K. Arya, Deputy CVO/GM (Vigilance) along officials from the Corporate Vigilance Department and from various projects of THDCIL. During the meet Ms. Rashmita Jha, Chief Vigilance Officer (IRS), shared the insights role of the vigilance in preventing the corruption and initiatives in strengthening vigilance mechanisms.



## Second Quarterly Review Meeting (QRM)

THDC India Limited conducted the Second Quarterly Review Meeting (QRM) of the Vigilance Department for the Financial Year 2025–26 at Tehri.

Sh. R. K. Vishnoi, Chairman and Managing Director, highlighted the organization's unwavering commitment to upholding transparency, ethical governance, and integrity across all operational levels. Sh. Vishnoi added that vigilance is not merely a statutory obligation but a collective responsibility that ensures accountability, trust, and sustainable institutional growth.

The meeting was chaired by Ms. Rashmita Jha, Chief Vigilance Officer (IRS), and was attended by Shri L. P. Joshi, Executive Director (Tehri Complex), Shri M. K. Singh, CGM, Shri S. K. Arya, Deputy CVO/GM (Vigilance), Shri Vijay Sehgal, GM, along with Heads of Departments from Tehri and Koteshwar Projects, officials from the Corporate Vigilance Department, and vigilance representatives from various projects.

CVO Ms. Rashmita Jha emphasized that vigilance is a shared responsibility essential for maintaining transparency and fairness in public administration. She encouraged officers to foster a preventive vigilance culture, ensuring every employee becomes a proactive stakeholder in upholding integrity.

Sh. L. P. Joshi, ED (Tehri Complex), during his address emphasized that collective commitment to integrity and transparency is the cornerstone of THDCIL's sustained success.







टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड  
THDC INDIA LIMITED

**THDC India Limited**

Observance of

# Vigilance Awareness

## Week-2025



**“सतर्कता : हमारी साझा जिम्मेदारी”**  
**“Vigilance: Our Shared Responsibility”**


From 18<sup>th</sup> August' 2025 to 17<sup>th</sup> November' 2025

**Vigilance  
is not a duty for a few;  
it's a responsibility for all.**

**Vigilance Department**



Follow us:- [f](#) @THDCIL 24x7 [X](#) @THDCIL\_MOP [Instagram](#) @THDC-India-limited [YouTube](#) @THDCIL India Limited - Official [in](#) @THDC India Limited-Official



## PART-IV

### Activities-Vigilance

### Awareness Week Campaign

2025



## Inauguration of Vigilance Awareness Week Campaign 2025

THDC India Limited (THDCIL), commenced Vigilance Awareness Week-2025 at its NCR Office, Kaushambi, Ghaziabad. The event was inaugurated with a ceremonial lighting of lamp by Ms. Rashmita Jha, Chief Vigilance Officer (IRS), THDCIL.

On the occasion, the Chief Vigilance Officer stressed that various programs are to be organized in accordance with the Central Vigilance Commission's mandate. She highlighted the importance of creating awareness at every level of society and directed that a wide range of outreach programs be organized in schools, colleges, Gram Sabhas, urban and rural areas, THDC's project sites, bus stations, Ganga Ghats, and main markets on the theme "Vigilance: Our Shared Responsibility" during Vigilance Awareness Week-2025.

The event was attended by Sh. Neeraj Verma, Executive Director (NCR Office), Sh. S. K. Arya, Dy. CVO and executives of Corporate Vigilance department, Rishikesh. The event was also attended by all the vigilance staff posted at various locations of THDCIL through online mode.

In addition to NCR Office, Ghaziabad the Vigilance Awareness campaign was also inaugurated at various other project sites/offices of THDCIL with great zeal and enthusiasm.







## "Awareness Campaign During Morning Assembly of Schools"

As part of the observance of Vigilance Awareness Campaign-2025, series of sensitizations programs were organized in schools during morning assemblies to promote the values of integrity, transparency and accountability among the students. These sensitization programs were conducted to instill the spirit of ethical living and civic responsibility among the students, motivating them to uphold the principles of transparency and honesty in their personal and public lives.







## Competitions organized in schools.

Various other activities such as Essay, Speech, Drawing and Painting competitions etc. were organized among different school students located near the THDCIL projects/offices. In addition to the above various activities have been conducted for THDCIL employees.







## Sensitization programs organized for Workers

Sensitization programs for workers engaged at project sites/offices were conducted to create awareness about their rights, responsibilities, and ethical conduct. The programs highlighted workers legal rights, including fair treatment, safe working conditions, timely payment of wages and access to grievance redressal mechanisms. The initiative successfully empowered site workers with knowledge of their rights and responsibilities reinforcing a culture of fairness. During the programs informative pamphlets were also distributed among workers covering topics of payment of wages, social safety measures, ESI and EPF Act etc







## Outreached awareness programs organized for Gram Sabhas / Villagers

As part of outreach activities several awareness programs were organized in different Gram Sabhas /villages to promote integrity, transparency and ethical conduct among the rural community. The programs focused on educating villagers about their rights, responsibilities and the importance of accountability in both public and private dealings. Interactive session, talks and discussions were conducted to inform participants about grievance redressal mechanism, reporting mechanism reporting irregularity and promoting corruption free India



PART-V  
**Articles/Poems**  
by  
**THDC Employees/  
Others**

## ईमानदारी के साथ संवादः सामूहिक प्रतिबद्धता के रूप में सतर्कता



डॉ. काजल परमार  
सहायक प्रबंधक (जनसंपर्क)  
कारपोरेट कार्यालय, ऋषिकेश

आज की सूचना-आधारित दुनिया में (यानी इनफार्मेशन ड्रिवेन वर्ल्ड), जहाँ धारणा अक्सर प्रतिष्ठा को परिभाषित करती है, सतर्कता अब केवल ऑडिट, फाइलों और वित्तीय जाँच तक ही सीमित नहीं रह गई है। यह संगठनों के संवाद के मूल ढाँचे तक आगे आ गई है, यह कर्मचारियों, हितधारकों और समाज के साथ जुड़ चुकी है। कॉर्पोरेट संचार जैसे विभाग के लिए, सतर्कता का मतलब सिफ़्र अनुपालन नहीं, बल्कि नैतिक दिशासूचक भी है। इसका मतलब है संगठन के नाम से जुड़े हर संदेश में सतर्क, नैतिक और पारदर्शी रहना।

### सतर्कता: केवल निगरानी नहीं

परंपरागत रूप से, सतर्कता निरीक्षणों और जाँचों की छवियाँ प्रस्तुत करती है। लेकिन टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड जैसे प्रगतिशील संगठन में, इसका अर्थ कुछ और भी गहरा है, सचेतनता और ईमानदारी। हर कर्मचारी नैतिक आचरण का संरक्षक बन जाता है जब वह छिपाने की बजाय पारदर्शिता और छल के बजाय सच्चाई को चुनता है।

कॉर्पोरेट संचार में, यह सतर्कता यह सुनिश्चित करने का रूप लेती है कि संगठन की आवाज़ विश्वसनीय, ज़िम्मेदार और उसके मूल मूल्यों के अनुरूप बनी रहे। हर प्रेस विज़प्ति, सोशल मीडिया पोस्ट या आंतरिक संदेश संस्थान के नैतिक मूल्यों को दर्शाता है। इसलिए, संचार में सतर्कता का अर्थ त्रुटि के भय से नहीं, बल्कि सत्य में विश्वास से है।

### संदेश में पारदर्शिता

“संचार में सतर्कता का पहला स्तंभ पारदर्शिता है।” जनता के साथ साझा की जाने वाली प्रत्येक जानकारी तथ्यात्मक, समयोचित और संतुलित होनी चाहिए। अतिशयोक्ति या चयनात्मक रिपोर्टिंग विश्वसनीयता को नुकसान पहुँचा सकती है और अविश्वास को बढ़ावा दे सकती है। एक सतर्क संचारक प्रत्येक तथ्य की पुष्टि करता है, औंकड़ों की जाँच करता है, और यह सुनिश्चित करता है कि बाहरी रूप से कहीं गई बातें आंतरिक वास्तविकता को प्रतिबिंबित करती हैं। प्रसार से पहले सक्षम प्राधिकारियों से आवश्यक अनुमोदन और मंजूरी प्राप्त करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे न केवल प्रक्रियात्मक अखंडता सुनिश्चित होती है, बल्कि संगठनात्मक जवाबदेही और विश्वास भी मज़बूत होता है।

पारदर्शी संचार संगठन के भीतर और बाहर, दोनों जगह विश्वास का सेतु बनाने में मदद करता है। यह हितधारकों को आश्वस्त करता है कि कंपनी के पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है, और हर संदेश उसकी नैतिक नींव का दर्पण है।

### सूचना का जिम्मेदारीपूर्वक प्रबंधन

कॉर्पोरेट संचार टीमें संवेदनशील जानकारी की संरक्षक होती हैं। ज्ञापन, रिपोर्ट, आगामी घोषणाएँ और नीतिगत निर्णय, सभी संचार माध्यमों से होकर सार्वजनिक डोमेन में पहुँचते हैं। यहाँ सतर्कता का अर्थ है यह जानना कि क्या साझा करना है, कब साझा करना है और कैसे साझा करना है, साथ ही आंतरिक डेटा की अखंडता की रक्षा भी सुनिश्चित करना है।

गोपनीयता के प्रति एक भी चूक या लापरवाही गलत सूचना या प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचा सकती है। एक सतर्क संचारक यह सुनिश्चित करता है कि सूचना उचित माध्यमों से, उचित अनुमोदन और आधिकारिक प्रोटोकॉल का पालन करते हुए जारी की जाए। इसमें संगठन के नाम और ब्रांड को बाहरी रूप से किस प्रकार प्रस्तुत किया जाए, इस बारे में भी विवेक की आवश्यकता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि संचार प्रयास हमेशा व्यक्तिगत पहचान के बजाय संस्था की विश्वसनीयता को प्रतिबिंबित करें।

इस प्रकार, सतर्कता एक अद्वय सुरक्षा कवच बन जाती है जो संगठनात्मक अखंडता और सार्वजनिक विश्वास दोनों की रक्षा करती है।

### नैतिक मीडिया और जनसंपर्क

संगठनों और मीडिया के बीच का रिश्ता आपसी सम्मान और विश्वसनीयता पर आधारित होता है। इस रिश्ते में, सतर्कता का अर्थ है, कहानियों में हेरफेर करने या चुनिंदा सच बोलने के प्रलोभन का विरोध करना।

कॉर्पोरेट संचारक तथ्यों और धारणा के बीच सेतु का काम करते हैं; इसलिए, उनकी सबसे बड़ी ताकत ईमानदारी है। सतर्क रहने का अर्थ यह भी सुनिश्चित करना है कि विज्ञापनों या प्रकाशनों में कोई भ्रामक दावा न किया जाए, और उपलब्धियों को विनम्रता और सटीकता के साथ प्रस्तुत किया जाए। नैतिक संचार दीर्घकालिक विश्वास का निर्माण करता है, ऐसा विश्वास जो सुर्खियों और पुरस्कारों से भी अधिक समय तक बना रहता है।

"संचार में सतर्कता सेंसरशिप नहीं है; यह विवेक है।"

### आंतरिक संचार: सामूहिक सतर्कता की संस्कृति का निर्माण

सच्ची सतर्कता संगठन के भीतर से ही शुरू होती है। जब कर्मचारियों को खुलकर बोलने, स्पष्टता की तलाश करने और पारदर्शी संवाद में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, तो साझा ज़िम्मेदारी की संस्कृति स्वाभाविक रूप से विकसित होती है।

कॉर्पोरेट संचार यहां महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि यह आंतरिक अभियान, समाचार-पत्र और सोशल मीडिया सामग्री तैयार करता है, जो सतर्कता संदेशों को वर्ष भर जीवंत बनाए रखते हैं, न कि केवल सतर्कता जागरूकता सप्ताह के दौरान।

ईमानदारी से काम करने वाले कर्मचारियों की कहानियाँ, नैतिक आचरण को बढ़ावा देने वाली पहल, और ईमानदारी की शपथ की याद दिलाने वाले संदेश, ये सभी डिजिटल और प्रिंट माध्यमों के माध्यम से रचनात्मक रूप से संप्रेषित किए जा जाते हैं। ऐसी हर पहल इस विचार को पुष्ट करती है कि सतर्कता केवल एक विभाग का कर्तव्य नहीं है, यह सभी की साझा नैतिक प्रतिबद्धता है।

### डिजिटल सतर्कता: नया आयाम

सोशल मीडिया और त्वरित सूचना आदान-प्रदान के युग में, डिजिटल सतर्कता अनिवार्य हो गई है। आज संचारक ऐसे परिवृश्य में काम कर रहे हैं जहाँ गलत सूचनाएँ तथ्यों से कहीं ज़्यादा तेज़ी से फैल सकती हैं।

ऑनलाइन सतर्क रहने का अर्थ है:

- साझा करने से पहले स्रोतों की पुष्टि करना,
- सोशल प्लेटफॉर्म पर आधिकारिक शिष्टाचार बनाए रखना,
- संगठनात्मक डेटा को साइबर खतरों से बचाना, और
- नकली प्रोफ़ाइल या फ़िशिंग प्रयासों से सावधान रहना।

एक पोस्ट, ट्वीट या फॉरवर्ड में धारणाओं को आकार देने की क्षमता होती है। इसलिए, डिजिटल क्षेत्र में सतर्कता प्रत्येक संचारक से जागरूकता, संयम और ज़िम्मेदारी की माँग करती है।

"डिजिटल सतर्कता नैतिक संचार का नया आयाम है।"

### साझा ज़िम्मेदारी

सतर्कता कोई एक बार की प्रक्रिया नहीं है, न ही यह किसी विशिष्ट विभाग तक सीमित है। यह एक साझा ज़िम्मेदारी है जो सभी कर्मचारियों को एक समान उद्देश्य के लिए एकजुट करती है, संगठन की प्रतिष्ठा और मूल्यों की रक्षा करना। कॉर्पोरेट संचार के लिए, यह ज़िम्मेदारी और भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें संगठन की पहचान को परिभाषित करने वाले कथानक को आकार देना शामिल है।

जब संचार सत्य, पारदर्शिता और जवाबदेही पर आधारित रहता है, तो सतर्कता स्वाभाविक रूप से संस्थागत संस्कृति का हिस्सा बन जाती है। हर प्रेस विज्ञप्ति, हर शीर्षक, हर संदेश में एक ही अव्यक्त आश्वासन गूंजता है, "हम ईमानदार हैं, हम जागरूक हैं, हम सतर्क हैं।"

### निष्कर्ष

सतर्कता का मतलब संदेह नहीं, बल्कि जागरूकता है। यह उँगली उठाने का नहीं, बल्कि हाथ मिलाने का है। संचारकों के लिए, इसका अर्थ है साहस और निरंतरता के साथ सच बोलना।

जैसा कि कहा जाता है, "सत्यमेव जयते" - केवल सत्य की ही जीत होती है। और संचार की दुनिया में, सतर्कता ही उस सत्य को जीवित रखती है, हर शब्द, हर संदेश और हर कहानी को सत्यनिष्ठा की ओर ले जाती है।

"जब शब्द मूल्यों की रक्षा करते हैं, तो सतर्कता अपनी सच्ची आवाज़ पाती है।"

## ईमानदारी: ईश्वर की सच्ची भक्ति

डॉ. आशुतोष कुमार आनंद  
उप महाप्रबंधक(मा.सं), कॉर्पोरेट नीति

सत्य की राह पर चलना,  
यह भी तो एक आराधना है।  
अपने उसूलों पर अटल रहना,  
यह भी तो एक प्रार्थना है।  
मन की गहराइयों में झाँको,  
वहाँ बैठा तुम्हारा भगवान है।  
सच्चाई और ईमानदारी से जियो,  
यह भी तो एक ध्यान है।  
लालच और झूठ से दूर रहो,  
यही तो असली पूजा है।  
किसी का बुरा न चाहो कभी,  
यही सच्ची इबादत दूजा है।  
जब मन हो तुम्हारा पवित्र,  
और कर्म में हो सच्चाई।  
समझो कि तुमने पा लिया,  
अखंड सुख, आत्म-शांति, जीवन में अच्छाई।  
ईमानदारी एक साधना है,  
जो मन को शुद्ध बनाती है।  
सत्य निष्ठा की साधना ही,  
हमें प्रबुद्ध बनाती है।  
मंदिरों में दीप जलाते हैं,

मन में श्रद्धा का भाव है।  
पूजा, अर्चना, आरती होती है,  
भक्ति का बहता प्रवाह है।  
पर भगवान सिर्फ यह नहीं देखते,  
कि तुम कितनी माला जपते हो।  
वह तो यह भी देखते हैं,  
कि तुम अपने कर्मों में  
कितने सच्चे और तपते हो।  
झूठ की नींव पर बनी हुई,  
प्रार्थनाएँ कहाँ तक जाती हैं?  
दिखावे की भक्ति से,  
क्या मन को शांति मिल पाती है?  
वह तो तुम्हारी नीयत देखते हैं,  
और तुम्हारे किए गए कामों को।  
कैसे तुम हर दिन जीते हो,  
और क्या करते हो तुम शामों को  
जो तुमने सच का साथ दिया,  
वह तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है।  
क्योंकि ईमानदारी से किया कर्म ही,  
ईश्वर की सच्ची भक्ति है।

## कविता : सतर्कता - हमारी साझा ज़िम्मेदारी

दवनीत कौर  
(सहायक प्रबंधक)  
मानव संसाधन - भर्ती विभाग  
कर्मचारी संख्या -2305399

इसे कुछ दिनों का पर्व समझूँ  
या हर क्षण का कर्तव्य नामित करूँ।

वाक़िफ़ तो हर नागरिक है,  
समझदारी की परिभाषा में हर कोई परिपक्व,  
दूसरे से चार कदम आगे है।

जहाँ इल्जाम लगे दूसरों पर-वहाँ पाठ पढ़ाना आसान क्यों है?  
जो लगे उठने खुद पर उंगली-वहाँ बयान में रोज़ी-रोटी का तर्क क्यों है?

सच्चाई की राह को अपनाना इतना कठिन क्यों लगता है,  
झूठ और फ़रेब ही अंधेरों में जुगनू-सा चमकीला क्यों लगता है?

मेरी ईमानदारी से भला किसका नफा होगा,  
हुजूम से अलग-फरेब से परे,  
मजमा मेरा ही होगा।

दी जिन्होंने जान वतन के नाम पर,  
धिक्कार होगा इस ज़माने की ऊँची मायावी शान पर।

सोच में बदलाव की आवश्यकता बहुत है,  
झूठी शान से परे, नींद में सुकून बहुत है।



## "From Rules to Culture: How HR Strengthens Vigilance"

Robin Antony  
Asst. Manager (HR&A)  
THDCIL, Rishikesh

Vigilance in Indian PSUs and government organizations is often perceived as the exclusive duty of the vigilance department. In reality, it is much wider in scope—it is about building a culture of transparency, accountability, and fairness at every level. In this journey, Human Resources plays a central role, because while vigilance provides the framework of checks and balances, HR shapes the culture and conduct of people who bring those systems to life.

Recruitment, training, performance management, and grievance handling are not just HR functions; they are also acts of vigilance. A recruitment process that is transparent and merit-based ensures that only deserving candidates enter the system, closing doors for favoritism and nepotism. Many PSUs that digitized their recruitment process found that complaints of bias and influence reduced sharply, showing how HR interventions can directly strengthen vigilance. Similarly, when employees are sensitized through training programs, workshops, or pledge ceremonies during Vigilance Awareness Week, they begin to see vigilance not as policing but as a shared responsibility. In one PSU, for instance, the introduction of online grievance redressal empowered employees to raise issues anonymously. This not only reduced instances of favoritism in transfers but also restored trust, lessening the burden on the vigilance wing.

The connection between HR and vigilance also becomes visible in performance management. If organizations reward only results without considering ethical behavior, employees may feel pressured to cut corners. However, when appraisals recognize integrity, teamwork, and fairness alongside achievements, a clear message goes out that the organization values not just outcomes, but also the way they are achieved. As the saying goes, "What gets measured, gets managed. If integrity is measured, integrity will be practiced."

Real-life experiences across PSUs highlight how HR interventions reinforce vigilance. In one organization, irregularities in contract labor engagement were repeatedly reported. On deeper analysis, it was found that the problem stemmed not only from contracts but also from weak HR oversight—lack of proper records, absence of verification of skills, and discretionary deployment. Once HR introduced biometric attendance, digitized employee records, and transparent selection procedures, the number of complaints fell drastically. This demonstrated that vigilance is not only about investigating wrongs but also about strengthening systems through HR.

The role of leadership is equally crucial. A senior officer who makes it a point to declare his assets on time, or a manager who resists pressure to compromise on quality standards, sets a living example for the workforce. Ethical conduct at the top creates a ripple effect across the organization. As Chanakya wisely said, "The biggest punishment for corruption is the loss of trust. Once trust is gone, authority soon follows." For PSUs, which are built on public trust, nothing can be more important than maintaining credibility.

Ultimately, vigilance and HR are two sides of the same coin. Vigilance gives direction, HR gives life; vigilance ensures compliance, HR nurtures conscience. Together, they create an environment where employees feel empowered, not fearful, and where integrity becomes second nature. Vigilance is not fault-finding, it is foresight. Extending that thought, one can say, "When vigilance joins hands with HR, foresight becomes culture."

The true test of a PSU or government organization does not lie merely in the projects it completes, but in the integrity of its people. When vigilance and HR come together in spirit and practice, they not only prevent corruption but also inspire pride, trust, and excellence across the organization.

## क्रांति का शंख

अजय रत्नांगी,  
सहायक अभियंता, सतर्कता

तोड़ो, तोड़ो यह भ्रष्ट-गढ़, यह स्वार्थ का माया-जाल!  
मुक्त करो जन-गण को, जिसने ओढ़ा है काली शाल।  
शोषक का दर्प फूला, ईमान हुआ पतित-क्लान्त,  
नव-विहान की साँसें अटकीं, कहाँ स्वतंत्रता, कहाँ अब व्यक्ति शांत ?  
अमावस की निशा का तम छाया,  
अधिकार हुआ व्याकुल-अंधा,  
फाइलें मौन, कलम थकी है, अब कौन करे इसको निर्बंधा?  
वह आता, भ्रष्टाचार, काल बन, कुर्सी का विष-प्याला,  
न्याय की चौखट पर बैठा, मुँह में लिए धन का ताला।  
पेट की आग नहीं बुझती, पर तिजोरी भरती जाती,  
सत्य की आँखें नीची हैं, झूठी महिमा गाई जाती।  
क्रांति का शंख बजाओ रे, ओ मेरे वीर जवान!  
क्रांति का शंख बजाओ रे, ओ मेरे वीर जवान!  
भूल गया इंसान क्यों अपना पथ, कहाँ गया वह सीधापन?  
भीतर ही भीतर खोखलापन, बाहर है केवल आडम्बर।  
मैंने देखा है, सरकारी बाबू की मेज पर, काँपती हुई हथेली को,  
एक किसान की आस टूटती, फटी-पुरानी झोली को।  
घूस की गठरी भारी है, पर मन का बोझ नहीं हलका,  
पीछे छूट गई नैतिकता, जब जेब का रास्ता छलका।  
अंधेरे कोने में, ज़मीर चुप है, जैसे कोई भूला गीत,  
कैसी यह प्यास, कैसी आग है, कैसी यह उलटी रीत!  
पीड़ा का सागर उमड़ा है, हर आँख में भय का पानी,  
हर चेहरे पर एक शिकन है, हर साँस एक अनकहीं कहानी।  
अरे भाई! यह जीवन अपना, यह देश अपना, क्यों इसे बेच रहे हो?  
छोटे-छोटे लालच में पड़कर, कल का सूरज खींच रहे हो?

क्रांति का शंख बजाओ रे, ओ मेरे वीर जवान!  
क्रांति का शंख बजाओ रे, ओ मेरे वीर जवान!  
मत बोलो कि मजबूरी है, मत दो कोई झूठी सफाई,  
भ्रष्टाचार नहीं है विवशता, यह तो है केवल जग-हँसाई।  
कंठ मेरा गँजता रहेगा,  
करता रहेगा न्याय का आह्वान,  
इस संग्राम को विश्राम नहीं, यह प्रण है हमारा महान।  
क्रांति का शंख बजाओ रे, ओ मेरे वीर जवान!  
क्रांति का शंख बजाओ रे, ओ मेरे वीर जवान!  
लो मशाल हाथ में, डरो नहीं, यह अग्नि-परीक्षा है महान,  
एक-एक दीपक जोड़कर, रच दो एक नया मेरे सपनो का हिन्दुस्तान।  
अंधियारा दीया जलाओ! खाली बाती में तेल भरो!  
आज शपथ लो, आज कसम खाओ, इस विष को दूर करो!  
सत्य का सूरज फिर चमकेगा, झूठ की नींव हिलानी है  
इस संघर्ष की विजय-गाथा, हर युग में हमे सुनानी है !  
क्रांति का शंख बजाओ रे, ओ मेरे वीर जवान!  
क्रांति का शंख बजाओ रे, ओ मेरे वीर जवान!



## “सतर्कता हमारी साझा जिम्मेदारी”

लेखिका- **नीलम काला चमोली**,  
**शिक्षिका एवं समाज सेविका**,  
**पत्री श्री राजेश चमोली**  
**उप महाप्रबंधक (सर्वे एवं अन्वेषण),**  
**टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड, ऋषिकेश।**

“सतर्कता हमारी साझा जिम्मेदारी है” यह एक अभियान का विषय है, जो ईमानदारी, पारदर्शिता और जवाब देही को बढ़ावा देने के लिए चलाया जाता है, इसका अर्थ है समाज हित का कोई भी कार्य किसी व्यक्ति या संगठन का अकेले का कार्य नहीं है बल्कि समाज और संबंधित पक्षों की सामूहिक जिम्मेदारी है कि सतर्क रहे, भ्रष्टाचार का विरोध करें और ईमानदार एवं स्वच्छ समाज का निर्माण करें।

हर समाज की प्रगति उसकी ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा एवं पारदर्शित पर निर्भर करती है। भ्रष्टाचारी एवं धोखाधड़ी राष्ट्र की प्रगति में बाधक बनते हैं। ऐसे में सफलता का विशेष महत्व होता है और सत्र का किसी भी भाग्य व्यक्ति की व्यक्तिगत जिम्मेदारी नहीं बल्कि संपूर्ण समाज की सदा जिम्मेदारी होती है।

सतर्कता का अर्थ होता है, अपने आसपास और संभावित खतरों के प्रति सचेत रहना जो हमें सुरक्षित रहने, भ्रष्टाचार को रोकने और दूसरों को नुकसान से बचाने में मदद करते हैं, यानी कि, यदि कोई अधिकारी अपने पद या अधिकारों का गलत उपयोग कर रहा है तो उसके प्रति सचेत रहना, उस पर अंकुश लगाना, ताकि समाज में ईमानदारी और पारदर्शिता बनी रहे। और यदि प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्तव्यों का निर्वहन सजगता व ईमानदारी से करें एवं गलत आचरण देखकर आवाज़ उठाएं और तब तक ना रुके जब तक की अपराधी पकड़ा नहीं जाता, तो निश्चित ही एक सुंदर और सुदृढ़ समाज का निर्माण हो सकता है।

**स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि :**

**“ उठो, जागो और तब तक संघर्ष करो**

**जब तक कि लक्ष्य प्राप्ति ना हो जाए।”**

अब हमारे पास एक शब्द आया है, साझा जिम्मेदारी यह एक बहुत ही पेचीदा शब्द है। इसका मतलब यह है कि, किसी एक कि नहीं बल्कि सबकी जिम्मेदारी होना, जैसे कोई मान लीजिए कोई एक व्यक्ति रिश्वत लेते हुए पकड़ा जाता है तो इसका मतलब यह नहीं की रिश्वत लेने वाला और देने वाला ही पकड़ा जाएगा, बल्कि वह भी पकड़ा जाएगा जिसे उसे व्यक्ति को दफ्तर में आते देखा, उसने उसे रोका क्यों नहीं, यदि तुम्हें पता था, तो तुमने उसे अंदर आने क्यों दिया। आधी-आधी बातें सामने आएंगी, यानी कि गलत होते हुए देखकर के उसे अनदेखा करना भी अपराध की श्रेणी में आता है। गलत को गलत कहना ही हमारी साझा जिम्मेदारी है।

सतर्कता का दूसरा अर्थ यह भी है कि “विश्व ब्लॉअर” को ही पकड़ लो, यानी कि तुम जिम्मेदार, तो हम भी सतर्क हैं क्योंकि अपराधी तो गलत कर ही रहा है, यदि हम सतर्क हैं तो वह गलत कार्य करने में अवश्य घबराएगा, क्योंकि

”साझे की हांडी चौराहे पर ही फूटती है”।

इसलिए सतर्क रहना अति आवश्यक है। शेखर खराड़ी जी ने इस संबंध में कहा है कि:

“ जब तक देश में भ्रष्टाचार रहेगा,

तब तक आम इंसान की तरक्की कर्तई संभव नहीं है।”

आज देश निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर हो रहा है, नए-नए आधुनिक उपकरण आम जनता तक पहुंच रहे हैं और उनका कार्य आसान बना रहे हैं। आम जनमानस इन उपकरणों का आदि होता जा रहा है, जिस वजह से साइबर क्राइम, भ्रष्टाचार एवं ऑनलाइन खरीदारी के कारण आर्थिक अनियमितताओं और मिलावटी वस्तुओं का व्यापार भी बढ़ रहा है।

आजकल सोशल मीडिया के समय में आज का युवा जहां नई खोज कर रहा है और देश की आधुनिकता के साथ-साथ विकास की ओर भी बढ़ रहा है, वही इन नए उपकरणों का प्रयोग धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार के लिए किया जा रहा है। आजकल साइबर क्राइम तो निरंतर बढ़ता ही जा रहा है इसमें फ्रॉड कॉल के माध्यम से अपराधी लोगों को भय दिखाकर पैसे लूट रहे हैं और आम नागरिक जागरूकता के अभाव में इनके जाल में फसे जा रहे हैं। इसके लिए सरकार तो विज्ञापनों के माध्यम से लगातार जनता को जागरूक करने का कार्य कर ही रही है और उसका प्रभाव भी पड़ रहा है किंतु हमारी भी नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि हम लोगों के बीच जाकर उनको जागरूक करें, क्योंकि सतर्कता हमारी साझा जिम्मेदारी है, सिर्फ सरकार या विशेष अधिकारियों की जिम्मेवारी नहीं। इसके साथ ही यदि हमारे ही बीच से कोई व्यक्ति अपराधियों के जाल में फसता है या इस प्रकार का अपराध करता है तो इसमें हमारा और हमारे देश का ही नुकसान और अपयश होता है।

सतर्कता हमारी साझा जिम्मेदारी के साथ-साथ एक सांस्कृतिक आंदोलन भी है जिसमें हम सभी की भागीदारी होनी चाहिए, जिससे कि समाज में अखंडता पारदर्शिता और नैतिक आचरण को बढ़ावा मिल सके। प्रत्येक कर्मचारी को ईमानदारी एवं निष्पक्षता से जवाब देने के साथ-साथ अपने कर्तव्यों का पालन करना तथा समाज को जागृत करने का साहस भी करना चाहिए।

तुम जब जागो तब देर नहीं ,

बस समझो यही सवेरा है।

सूरज की स्वर्णिम किरणों से,

ज्यों भागा दूर अंधेरा है।

जीवन पथ पर चलते-चलते,

अवरोध बहुत से आएंगे।

मत रुकना तुम यूँ घबरा कर,

वह सीख नई दे जाएंगे।



## The Role of Technology in Preventive Vigilance

**Dileep Kumar Dwivedi, DGM (HR&A), KSTPP  
Dr. Prabhat Kumar, Asst. Manager (PR), KSTPP**

Preventive vigilance in governance refers to proactive efforts aimed at improving systems, policies, and processes to minimize the likelihood of corruption, inefficiency, and misconduct. Instead of reacting to irregularities after they occur, preventive vigilance emphasizes identifying and addressing vulnerable points within organizational operations—such as procurement, recruitment, contract management, and approval procedures—where unethical practices could arise. By reducing excessive human discretion and promoting objective decision-making, it ensures transparency, fairness, and accountability within the system. Enhancing organizational mechanisms through standardized and auditable processes also contributes to better oversight. Equally important are awareness and training initiatives that cultivate ethical conduct and strengthen the moral responsibility of employees.

Technology has emerged as a vital enabler of preventive vigilance, offering effective tools to ensure transparency, minimize human bias, and enhance monitoring. Key examples include e-Procurement, e-Tendering, and e-Payment systems, which digitize purchasing and financial processes. These systems limit direct human interaction, maintain digital records of all transactions, and enable real-time tracking, thereby reducing opportunities for corruption and manipulation. Similarly, automation and digitization of internal workflows, such as file tracking and online approvals, have significantly reduced delays and the risk of tampering. Through business process re-engineering, automation enforces predefined rules and minimizes discretionary behaviour, ensuring consistent and rule-based decision-making.

Data analytics and artificial intelligence (AI) have further strengthened preventive vigilance mechanisms. By analyzing large datasets, AI and machine learning tools can identify unusual patterns, inconsistencies, or potential risks in organizational activities. Predictive models based on past cases of fraud or corruption help identify high-risk areas, allowing authorities to take timely corrective actions. Computer-assisted audits and continuous monitoring systems also provide real-time insights into financial and operational irregularities. Dashboards and automated alerts help vigilance officers track performance indicators and detect emerging issues promptly.

To foster accountability, whistleblower and online reporting systems offer secure and anonymous channels for individuals to report unethical behaviour without fear of retaliation. These digital platforms act as early warning systems, encouraging transparency and responsiveness. Likewise, open data portals, public dashboards, and transparency platforms empower citizens to monitor government activities, tenders, and contracts, thus promoting participatory governance.

Emerging technologies like blockchain and distributed ledger systems (DLT) have added another layer of reliability by securing records against tampering and ensuring authenticity. These are particularly effective in maintaining contract data and evidence logs. Additionally, geospatial tools, remote sensing, and CCTV-based surveillance aid in identifying unauthorized construction, land misuse, and environmental violations. Simulation and risk modelling further assist in anticipating corruption-prone zones and evaluating preventive strategies.

Finally, as technology becomes deeply integrated into governance, maintaining ethical standards, data privacy, and cybersecurity is essential. Preventive vigilance must not only detect and deter wrongdoing but also uphold integrity, protect sensitive data, and ensure that technological interventions remain fair, transparent, and trustworthy.

### **Advantages of Incorporating Technology in Preventive Vigilance**

The adoption of technology in preventive vigilance has transformed the way organizations detect, deter, and address irregularities. One of the key advantages is the ability to identify anomalies in real or near real-time. By detecting potential issues early, authorities can act promptly to correct them before they cause significant damage or losses. This proactive monitoring greatly minimizes risks and ensures smoother, more transparent functioning across institutions.

Technology also plays a vital role in reducing human discretion and bias. Automated systems and digital workflows limit opportunities for favoritism, nepotism, or subjective decision-making, ensuring uniformity and fairness across all organizational levels. Every digital process leaves behind a clear audit trail, which enhances accountability. This traceability enables quick investigations when irregularities occur, reinforcing a sense of responsibility among employees and deterring misconduct.

Another major benefit lies in the efficiency and cost-effectiveness that technology brings. Automation reduces administrative workload, minimizes human error, and ensures timely completion of tasks. As manual intervention decreases, the likelihood of corruption or procedural delays also declines. Once implemented, these systems can be easily expanded across departments or regions without significant additional investment, amplifying their impact at minimal cost.

Technology-driven vigilance also enables more informed, data-based decision-making. Instead of depending on intuition or outdated practices, authorities can analyze real-time data to identify high-risk areas, monitor underperforming units, and predict potential lapses. This targeted approach not only strengthens vigilance but also improves public confidence in institutions. Citizens can observe transparent and proactive systems at work, which enhances trust in governance. Additionally, adherence to internal and external compliance standards—such as ISO or audit protocols—is made easier through automated monitoring tools, ensuring ethical and operational consistency.

In India, the Central Vigilance Commission (CVC) has been a strong advocate for integrating technology into vigilance mechanisms. Many government organizations have adopted tools like e-tendering, e-payments, and digital file tracking systems to minimize discretion and human interface. The CVC's Annual and Preventive Vigilance Initiative Reports highlight how technology is helping seal loopholes in critical areas such as procurement, contracts, recruitment, and civil works. Similarly, institutions like the Reserve Bank of India (RBI) have emphasized digital audits, staff training, and system-based checks to prevent irregularities.

However, technological adoption in vigilance is not without challenges. The effectiveness of these systems heavily depends on the quality and reliability of data. Incomplete, outdated, or incorrect data can result in false alerts or missed risks, undermining the very purpose of preventive vigilance. Privacy and data security concerns also arise as organizations collect and analyze large volumes of sensitive information. Strong encryption, strict access controls, and ethical safeguards are essential to protect against misuse.

Bias in algorithms is another risk, especially when machine learning tools are trained on flawed historical data. Such bias can lead to unfair outcomes or reinforce systemic inequities. Similarly, frequent false alarms generated by automated systems can increase administrative workload instead of reducing it.

Institutional resistance to change often slows the adoption of new technologies. Employees used to conventional systems may hesitate to accept digital reforms that increase transparency and reduce discretion. Additionally, establishing and maintaining such systems requires substantial investment and skilled personnel (resources that smaller institutions may lack).

Infrastructure deficiencies and cybersecurity threats further complicate implementation. Poor internet connectivity or outdated hardware can restrict access to digital vigilance tools, while vulnerabilities in systems may expose sensitive data to cyberattacks. Legal and regulatory frameworks have also struggled to keep pace with rapid technological progress, leading to uncertainties regarding digital evidence and surveillance oversight.

Despite these challenges, technology remains an indispensable ally in modern preventive vigilance. When combined with ethical oversight and human judgment, it strengthens transparency, accountability, and efficiency—laying the foundation for cleaner, more responsible governance.

## A Vision for the Future

Looking ahead, technology holds immense potential to deepen preventive vigilance in governance. Predictive governance is emerging as a powerful tool, enabling authorities not only to anticipate fraud or misconduct but also to identify areas where policies or processes are likely to

fail, allowing more resilient designs. Integration across platforms—linking procurement, finance, HR, project tracking, audits, and grievance redressal systems—can help detect anomalies across silos, creating a holistic oversight framework. Technologies like blockchain can provide immutable records for contracts, supply chains, land registries, and other critical data, ensuring tamper-proof histories. Smart contracts and automated triggers can further enhance accountability by releasing payments only after verification through sensors or third-party confirmation, reducing the scope for manual discretion.

Artificial intelligence and machine learning, especially in natural language processing, offer opportunities to scan documents for suspicious clauses, detect non-compliant language, or identify potential kickback indicators. Crowd-sourced oversight platforms can empower citizens to compare reported progress with actual outcomes of public works, enhancing community engagement in vigilance. Greater openness in governance data through open data initiatives allows external researchers, civil society, and the media to contribute to transparency.

In the context of India, several factors make technology particularly relevant for preventive vigilance. The vast scale of governance—with numerous departments, PSUs, and local bodies handling huge transaction volumes—makes manual oversight inadequate. Initiatives under Digital India, such as digital payments, online service delivery, and Aadhaar infrastructure, provide a strong technological foundation. The Central Vigilance Commission (CVC) and Chief Vigilance Officers (CVOs) actively promote preventive vigilance and emphasize technology, standardization, and transparency in their guidelines. Legal and policy frameworks, including anti-corruption laws, the Right to Information (RTI) Act, and transparency requirements in various government schemes, further support this approach. Finally, increasing citizen awareness and expectations, amplified through social media, make visible, technology-enabled tools critical for building public trust.

### **Limitations, Ethical, and Legal Considerations**

While technology offers significant benefits, it also comes with important caveats. Privacy and data protection are paramount; data must be minimal, securely stored, and used solely for legitimate vigilance purposes, with consent and legal backing. Digital evidence, whether from CCTV, blockchain, or transaction logs, must meet legal standards to be admissible in courts or administrative proceedings. Surveillance tools such as facial recognition and cameras must balance vigilance with civil liberties and be subject to strict oversight. AI and machine learning tools should be audited for bias, ensuring marginalized areas or populations are not left behind due to digital infrastructure gaps. Even with advanced algorithms, human oversight remains essential, as false positives can harm reputations, and punitive decisions must always follow due process.

## Recommendations

To effectively use technology for preventive vigilance, governments and institutions must follow a systematic strategy. Creating a national or organizational vigilance technology roadmap ensures proper planning for adoption, integration, and budgeting. Strengthening digital infrastructure—such as internet access, secure cloud systems, cybersecurity, and digital literacy—is essential at every level. Standardized and interoperable platforms enable smooth data exchange among departments. Updated legal frameworks must address digital evidence, privacy, data sharing, and penalties for misuse.

Transparency tools like open dashboards, e-procurement, and grievance systems can boost public trust and accountability. Regular audits, independent evaluations, and timely updates of risk models enhance the efficiency of vigilance technologies. Ethical use of AI—ensuring fairness, transparency, and human oversight—must guide all efforts.

Technology can transform vigilance from reactive enforcement to proactive prevention, promoting efficiency and trust in governance. In India, the combination of large-scale digital initiatives, CVC's preventive focus, and rising citizen expectations provides a strong foundation. However, true success lies in aligning technology with human values such as integrity, accountability, and fairness.

In sum, technology is not a silver bullet, but when used wisely, it is one of the most powerful levers for preventive vigilance. The future of governance demands that we harness it not just to punish wrongdoing, but to make wrongdoing far less likely in the first place.



## “सतर्कता: हमारी साझा जिम्मेदारी”

दिनेश चन्द्र भट्ट

अपर महाप्रबंधक (विद्युत)  
परियोजना सर्विसेज विभाग, टिहरी

समृद्ध राष्ट्र के लिए सतर्क समाज अपने प्राथमिक साधनों से शासन में सुरक्षित, न्यायपूर्ण, पारदर्शिता और जवाबदेही की नींव रख सकता है। हमारी साझा जिम्मेदारी है, प्रत्येक व्यक्ति अपने विश्वास व् जिम्मेदारी को केन्द्रित करते हुए

**“उद्यमेन हि सिध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः”**

(प्रयास से ही कार्य सिद्ध होते हैं, केवल इच्छाओं से नहीं)

ईमानदारी, निष्पक्षता और जवाबदेही के साथ अपने कर्तव्यों का पालन कर भ्रष्टाचार, अपराध और अन्य सामाजिक बुराइयों पर प्रभावी लगाम लगा सकता है।

सतर्कता यह एक सामूहिक प्रयास है जो जिम्मेदारी एवं कर्तव्यों के प्रति सजग रखता है तथा एक सुरक्षित, ईमानदार और समृद्ध राष्ट्र एवं बेहतर भविष्य के निर्माण की नींव डालता है।

**“ न स्नेहात् कृत्वा विघ्नं न द्वेषात् न च लोभतः । न मोहत् कार्यमत्यन्तं कार्यं कार्यवदाचरेत् ॥”**

यह हमें निष्पक्षता और कर्तव्यनिष्ठा का सिद्धांत सिखाता है, स्नेह, द्वेष, लोभ और मोह जैसे भाव मनुष्य के निर्णय को विकृत करते हैं, इसलिए, किसी भी कार्य को करते समय इन भावनाओं से प्रभावित नहीं होना चाहिए बल्कि केवल अपने कर्तव्य के रूप में, न्यायपूर्वक और विवेकपूर्ण तरीके से उसे करना चाहिए।

सतर्कता केवल कानून के भय से नहीं, बल्कि नैतिक मूल्यों के कारण, आत्म-जागरूकता से आनी चाहिए। राष्ट्रीय सुरक्षा से लेकर आर्थिक विकास तक हर क्षेत्र में सतर्कता की आवश्यकता है। जब समाज का प्रत्येक व्यक्ति यह समझ लेगा कि उसकी छोटी सी लापरवाही भी बड़े नुकसान का कारण बन सकती है, तब ही सच्चे अर्थों में सतर्कता सम्भव होगी।

आज के बदलते सामाजिक एवं आर्थिक परिवृश्य में “सतर्कता: हमारी साझा जिम्मेदारी” केवल एक नारा नहीं, बल्कि ऐसा जीवन मन्त्र है, जिसे अपनाकर हम सुरक्षित, पारदर्शी और आदर्श समाज से समृद्ध राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं।

## सतर्कता और जागरूकता

### जी एस चौहान

उप महाप्रबंधक (सतर्कता), ऋषिकेश।

सतर्कता और जागरूकता, प्रायः इन दोनों शब्दों का प्रयोग एक-दूसरे के स्थान पर कर लिया जाता है, परंतु वस्तुतः इनके अर्थ, प्रयोजन और प्रभाव में सुक्ष्म किंतु महत्वपूर्ण अंतर है। एक ओर जहाँ सतर्कता अनियमितताओं की रोकथाम हेतु एक संगठित व्यवस्था है, वहीं दूसरी ओर जागरूकता नैतिकता और ईमानदारी की आंतरिक प्रेरणा है।

सतर्कता (Vigilance) का तात्पर्य है, किसी भी प्रकार की अनियमितता, भ्रष्टाचार, या अनुचित आचरण के प्रति संवेदनशील रहना तथा समय रहते निवारक या सुधारात्मक कदम उठाना। यह केवल निगरानी की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि एक सकारात्मक प्रबंधन उपकरण है जो संगठन में सुशासन और पारदर्शिता सुनिश्चित करता है।

#### ➤ सतर्कता का मुख्य उद्देश्य है:

निर्णय प्रक्रिया में निष्पक्षता और पारदर्शिता बनाए रखना, वित्तीय एवं प्रशासनिक गतिविधियों में ईमानदारी और अनुशासन सुनिश्चित करना, संभावित जोखिमों एवं अनियमितताओं की पहचान कर उन्हें रोकना, संगठन में सतर्कता संस्कृति (Vigilance Culture) का विकास करना। इस प्रकार सतर्कता का मूल स्वरूप नकारात्मक नहीं, बल्कि रचनात्मक है, जो त्रुटियों को रोकने के साथ-साथ सही प्रक्रियाओं को प्रोत्साहित करता है।

जागरूकता (Awareness) का अर्थ है: ज्ञान, समझ और संवेदनशीलता का विस्तार। यह बाह्य नियंत्रण से अधिक आंतरिक चेतना से संबंधित है। जब व्यक्ति या कर्मचारी नियमों, नीतियों और नैतिक मूल्यों के प्रति स्वयं सचेत होता है, तब जागरूकता की वास्तविक भावना प्रकट होती है। जागरूक व्यक्ति कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करता है, ईमानदारी और पारदर्शिता को आत्मसात करता है, दूसरों को भी सही दिशा में प्रेरित करता है, एवं संगठन में सहयोग और उत्तरदायित्व की भावना विकसित करता है, अर्थात् जागरूकता वह शक्ति है जो व्यक्ति के भीतर आत्मनियंत्रण और नैतिक बोध को जागृत करती है।

#### ➤ सतर्कता एवं जागरूकता का तुलनात्मक विवेचन

बिंदु	सतर्कता (Vigilance)	जागरूकता (Awareness)
स्वरूप:	बाह्य नियंत्रण एवं क्रियात्मक प्रक्रिया	आंतरिक चेतना एवं मानसिक स्थिति
उद्देश्य:	अनियमितताओं की रोकथाम	नैतिक आचरण का संवर्धन
साधन:	नियम, निरीक्षण, जाँच एवं रिपोर्टिंग	प्रशिक्षण, शिक्षा एवं संवाद
परिणाम:	अनुशासन एवं पारदर्शिता	निष्ठा एवं आत्म-प्रेरणा
दृष्टिकोण:	निवारक एवं सुधारात्मक	शिक्षात्मक एवं प्रेरणात्मक

संक्षेप में कहा जाए तो सतर्कता एक रचनात्मक उपकरण है, जो हमें गलत कार्य करने से रोकती है, जबकि जागरूकता वह प्रेरणा है जो हमें सही कार्य करने के लिए उत्साहित करती है। किसी भी संगठन में केवल सतर्कता पर्याप्त नहीं होती, यदि कर्मचारियों में जागरूकता का अभाव है, तो संगठन के उद्देश्य एवं लक्ष्यों की पूर्ति हो पाना लगभग असंभव है। इसी प्रकार केवल जागरूकता होने पर भी सतर्कता तंत्र आवश्यक है, ताकि नीति और अनुशासन का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके। अतः दोनों ही एक-दूसरे के पूरक हैं। जब प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी स्वयं सतर्क एवं जागरूक होता है, तब संगठन में सुशासन, पारदर्शिता और नैतिकता स्वतः स्थापित होती है।

सतर्कता और जागरूकता किसी भी संस्थान के दो अभिन्न आधार स्तंभ हैं। जहाँ सतर्कता संस्थागत अनुशासन को सुदृढ़ करती है, वहीं जागरूकता व्यक्ति के अंतर्मन में ईमानदारी और निष्ठा के संस्कार भरती है। दोनों के समन्वय से ही एक उत्तरदायी, पारदर्शी और नैतिक संगठनात्मक संस्कृति का निर्माण संभव है। यथार्थ में सतर्कता और जागरूकता का लक्ष्य यही है कि हम सभी सामूहिक रूप से "ईमानदारी को एक आदत, और पारदर्शिता को एक संस्कृति" के रूप में आत्मसात कर अपने संगठन एवं राष्ट्र के विकास की में योगदान दे सकें।



## समाज निर्माण में सतर्कता की भूमिका

मोहित गोयल, प्रबंधक (सतर्कता)  
खुर्जा, टीएचडीसीआईएल

समाज के विकास और लोकतंत्र की मजबूती के लिए सबसे आवश्यक तत्वों में से एक है सतर्कता। सतर्कता केवल भ्रष्टाचार पर नियंत्रण का साधन ही नहीं, बल्कि समाज में पारदर्शिता, नैतिकता और जवाबदेही की संस्कृति का आधार भी है। जब व्यक्ति, संस्थाएँ और शासन-व्यवस्था सजग रहते हैं, तभी विकास की धारा समान रूप से प्रवाहित होती है और नागरिकों में विश्वास कायम होता है। आज के दौर में जब सूचना और तकनीक के माध्यम से पारदर्शिता की माँग तेजी से बढ़ी है, सतर्कता का महत्व और भी अधिक प्रासंगिक हो गया है। यह न केवल प्रशासनिक स्तर पर ईमानदारी सुनिश्चित करती है, बल्कि सामाजिक मूल्यों को भी मजबूत बनाती है।

### सतर्कता की संकल्पना

सतर्कता का सरल अर्थ है—जागरूकता और सचेतन प्रयास। यह सिर्फ गलतियों या अपराधों को पकड़ने का औजार नहीं है, बल्कि लोगों को गलतियों से बचाने, सही मार्ग पर चलने और सामूहिक भलाई में योगदान देने की प्रक्रिया है। शासन-व्यवस्था में स्थापित विजिलेंस तंत्र भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के साथ-साथ एक ऐसी प्रणाली विकसित करने का प्रयास करता है जहाँ नैतिकता, निष्पक्षता और पारदर्शिता प्रमुख हों।

### समाज में सतर्कता की आवश्यकता

#### 1. भ्रष्टाचार पर नियंत्रण:

भ्रष्टाचार किसी भी समाज की प्रगति का सबसे बड़ा अवरोध है। जब सतर्कता के तंत्र प्रभावी तरीके से कार्य करते हैं, तो घोटालों, रिश्वतखोरी और संसाधनों के दुरुपयोग पर अंकुश लगता है।

#### 2. नागरिकों का विश्वास बहाल करना:

समाज तभी मजबूत होता है जब नागरिकों को प्रशासनिक और न्यायिक संस्थानों पर विश्वास हो। सतर्कता पारदर्शी कार्यप्रणालियाँ स्थापित कर नागरिकों का भरोसा बढ़ाती है।

#### 3. नैतिक मूल्यों की रक्षा:

सतर्कता लोगों को यह संदेश देती है कि ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा ही सही मार्ग है। यह न केवल शासन में बल्कि व्यक्तिगत और सामाजिक स्तर पर भी नैतिक आदर्श स्थापित करती है।

### सतर्कता और समाज निर्माण

सतर्कता का समाज निर्माण पर सीधा और गहरा प्रभाव पड़ता है।

#### 1. समाज अवसर का वातावरण:

जब भ्रष्टाचार नहीं होगा, तो हर व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुसार अवसर मिलेंगे। पारदर्शिता योग्यता-आधारित चयन प्रक्रिया को प्रोत्साहित करती है।

#### 2. न्यायपूर्ण समाज का निर्माण:

सतर्कता यह सुनिश्चित करती है कि संसाधनों का वितरण न्यायसंगत हो। इससे समाज में असमानता और

शोषण की प्रवृत्ति कम होती है।

**3. सामाजिक जिम्मेदारी का विकास:**

यदि लोग देखते हैं कि भ्रष्ट आचरण पर सख्ती से कार्यवाही हो रही है, तो वे भी अपने आचरण को सुधरते हैं। इसका परिणाम पूरे समाज में नैतिक अनुशासन के रूप में सामने आता है।

**4. कुशल शासन:**

सतर्कता सुनिश्चित करती है कि सरकारी योजनाएँ और बजट वास्तव में ज़रूरतमंद लोगों तक पहुँचे। कुशल शासन से समाज तेजी से प्रगति करता है।

## चुनौतियाँ

हालाँकि सतर्कता की महत्ता निर्विवाद है, फिर भी इसके सामने कई चुनौतियाँ हैं।

**1. जन-जागरूकता की कमी:**

अधिकांश नागरिक अपने अधिकार और सतर्कता से संबंधित प्रक्रियाओं को पूरी तरह नहीं जानते।

**2. प्रणालीगत कमियाँ:**

कई बार सतर्कता संस्थाओं को राजनीतिक या प्रशासनिक दबाव का सामना करना पड़ता है, जिससे उनकी निष्पक्षता प्रभावित होती है।

**3. लंबी और जटिल जांच प्रक्रिया:**

समय पर निर्णय न होने से दोषियों के हौसले बढ़ते हैं और जनता का विश्वास कम होता है।

**4. डिजिटल युग की नई चुनौतियाँ:**

साइबर अपराध और ऑनलाइन धोखाधड़ी सतर्कता तंत्र के लिए नए क्षेत्र बने हैं, जिनके लिए विशेष रणनीति की आवश्यकता है।

## समाज में प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी

सतर्कता केवल किसी सरकारी संगठन या कार्यालय का दायित्व नहीं है। हर नागरिक का कर्तव्य है कि वह ईमानदारी से अपने दायित्व निभाए और भ्रष्ट आचरण का समर्थन न करे।

- यदि कोई व्यक्ति रिश्वत लेने से मना करता है, तो वह भी सतर्कता का उदाहरण प्रस्तुत करता है।
- शिक्षक अपने विद्यार्थियों में नैतिक मूल्यों की शिक्षा देकर आने वाली पीढ़ी को जागरूक बना सकते हैं।
- व्यवसायी अपने लेन-देन पारदर्शी रखकर समाज में ईमानदारी की नींव रख सकते हैं।
- युवा तकनीक का उपयोग कर डिजिटल पारदर्शिता को बढ़ावा दे सकते हैं।

सतर्कता को तभी वास्तविक बल मिलेगा जब यह केवल सरकारी नियम तक सीमित न रहकर नागरिक जीवन का अभिन्न हिस्सा बन जाए।



## Vigilance: Our Shared Responsibility

**Smt. Shella**  
Manager, NCR, Office Kaushambi

In this era of globalization, the importance of vigilance has become more crucial than ever due to the rapid advancement of technology and the threats it poses. Considering vigilance as a collective effort, we all need to maintain our awareness, vigilance, and active participation as true citizens. Vigilance is not a one-day duty but a lifelong habit. If every individual stays alert and responsible, together we can build a secure, corruption-free, and progressive nation.

### ➤ What is Vigilance

**Vigilance** is the act of being alert, vigilant, and aware of the events happening around us. Vigilance is not only the responsibility of the government or security forces, but also of every citizen. The ability to remain vigilant enables us to protect our communities and our country from accidents, as well as threats such as terrorism, crime, and corruption.

### ➤ Understanding Shared Responsibility

**Shared Responsibility** means that no single individual or authority can act alone to protect society; everyone must work together. When society unites, it becomes stronger and safer, creating an environment where justice and fairness prevail.

### ➤ Importance of being Vigilant

Being aware is the first step towards being vigilant. We need to be aware of our surroundings and deliberate before acting. When people stay vigilant, they can prevent misconduct early on. A few tiny actions of vigilance that have a significant impact include reporting suspicious activity, refraining from reckless resource use, and opposing bribes. One can prevent mishaps, criminal activity, and other dangerous circumstances by remaining vigilant.

### Vigilant at Schools

By adhering to the rules, speaking out against bullying, not cheating in exams, taking care of school property and lending a helping hand to others, students demonstrate vigilance in the classroom.

### Vigilant at Home

Being vigilant is a shield for our family's safety. From childhood, we're taught to lock doors securely, not open them to strangers, and never share our personal information with strangers. In this age of digitalization, it's crucial for all of us to be cautious when using the Internet. By following few simple steps, one can keep his families safe.

### Vigilant at Office

Being vigilant is also necessary to stop corruption in society. The abuse of money or power, including offering or accepting bribes, is referred to as corruption. Honest people who disclose such

wrongdoings make society stronger and more equitable. By ensuring that safety, integrity, and transparency are upheld, employees can continue to be alert at work place. By reporting crimes, adhering to ethical practices, preventing misuse of resources, reporting any form of misconduct or irregularity, and raising awareness, citizens may work together to build a strong and secure nation.

### **Vigilant on Roads/Public Places**

Being alert on the road can save not only our lives but also the lives of others. By paying attention to traffic signals, being careful when crossing the road, driving carefully, and wearing a seat belt, etc., we can avoid accidents.

Being alert to unattended baggage, suspicious activity, or safety hazards and informing the relevant authorities promptly.

### **Vigilant during Online**

In this modern era, one should avoid sharing passwords, clicking on unknown links, even talking to strangers online, identifying misinformation, avoiding phishing attempts, and promoting responsible use of social media platforms.

### **Vigilant about Nature**

Being watchful entails taking responsibility for the environment as well as for people and society. Since environment is vital to our survival, we should be mindful of save water, pollution, understand ways to promote greenery, and refrain from wasting resources. Being mindful and responsible also means taking care of and paying attention to nature.

#### **➤ The Role of Citizens**

Being alert, knowledgeable, and ready to act in the public's safety and ethical standards' best interests is what it means to be vigilant. We tend to underestimate our own power. The smallest act of questioning strange behaviour, a phone call, or a report can start a chain reaction that prevents harm or reveals misconduct.

Being vigilant does not mean being paranoid. It means being aware, informed, and prepared to act in the interest of public safety and ethical standards.

#### **➤ Ways to promote Vigilance**

Vigilance cannot be successful if only a few persons practice it. It should be shared responsibility of all. Parents must be alert about their children safety, teachers must be alert about their students and citizens must be watchful about corruption and crime. Government and police must remain vigilant to protect people. When everyone works together vigilance becomes powerful.

- 1. Education and Awareness:** Through workshops, seminars, and real- world case studies, schools, institutions, and organizations must inculcate principles of integrity and attentiveness from an early age.
- 2. Strong Whistleblower Mechanisms:** When reporting corruption or threats people need to

feel secure and protected. Laws protecting whistleblowers and avenues for anonymous reporting are essential.

3. **Local Participation:** Public- private collaborations, citizen forums, and neighbourhood watch programs can all promote group vigilance.
4. **Digital Literacy:** As cybercrime becomes a growing threat, educating citizens on digital hygiene, privacy, and responsible behaviour online is essential.

When citizens develop a sense of shared responsibility, it fosters honesty and discipline in society. This instils a sense of security and trust in people. Through vigilance, we can build a society where people live without fear and with respect for one another.

#### ➤ Conclusion

In short, being vigilant is a daily habit that we must cultivate rather than an isolated incident. It prevents wrongdoing, discourages misconduct, and keeps us and our community secure. Everyone has a part to perform, regardless of age or wealth. We safeguard ourselves, our loved ones, and our country when we all remain vigilant and behave honourably and responsibly. Thus, let us keep in mind that being vigilant is our shared duty, not someone else's. Together, we can create a future that is stronger, safer, and more promising. The role of the police and government is also significant. They enact laws, apprehend offenders, and maintain social harmony. They can't do it alone, though. Vigilance is not a once-a-year slogan-it is a continuous commitment. It is the invisible shield that protects nations, communities, and individuals from harm. So always remember, that **security, integrity, and justice are not just institutional duties-they are societal responsibilities.**

As citizens, we are not bystanders. We are the first line of defence. When we stay vigilant, we don't just protect ourselves-we protect our future.

**Vigilance is not just a duty. It is a mindset. A culture. A shared responsibility.**



## सतर्कता – हमारी सामूहिक ज़िम्मेदारी

श्रीमती प्रिया गोयल, पत्नी श्री मोहित गोयल, प्रबंधक (सतर्कता)  
खुर्जा, टीएचडीसीआईएल

आज के समय में, जब सूचनाओं का प्रवाह तेज है और हर दिन नयी चुनौतियां सामने आती हैं। सतर्क रहना सिर्फ एक विकल्प नहीं, बल्कि जरूरी बन गया है।

सतर्कता का मतलब केवल गलतियों को पकड़ना नहीं, बल्कि सही को चुनना, सही को अपनाना और सही को बढ़ावा देना है, चलिये एक कहानी सुनाती हूँ कहानी का शीर्षक है। –

**“एक छोटी सी हिम्मत”**

रवि रोज़ की तरह ऑफिस से घर लौट रहा था। रस्ते में उसने देखा की एक आदमी गली के कोने पर बिजली के खम्मे से छेड़छाड़ कर रहा है। आसपास से कई लोग गुजरे, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। रवि के मन में दो बातें चल रही थीं – “छोड़ो, मुझे क्या करना है”.....

और

“अगर इस वजह से किसी को नुकसान को गया तों? उसने हिम्मत जुटाई, पास गया और पूछा – “भाई साहब, आप क्या कर रहे हैं?” वह आदमी घबरा गया और भाग निकला। रवि ने तुरंत बिजली विभाग को फ़ोन करके इसकी सुचना दी, अगले दिन, उसी खम्मे की मरम्मत हुई और अधिकारी ने बताया की अगर समय रहते ये पता न चलता, तो पूरी गली में करंट फैल सकता था।

**रवि को एहसास हुआ-**

“सतर्क रहना सिर्फ अपनी सुरक्षा के लिए ही नहीं, बल्कि पुरे समाज की ज़िम्मेदारी है” उस दिन उसने ठान लिया – “गलत को देखकर चुप नहीं रहूँगा सही को चुनूँगा और सबको जागरूक करूँगा।

**संदेश** – हम सबके छोटे - छोटे कदम मिलकर बड़े बदलाव ला सकते हैं।

सतर्कता कोई एक दिन की बात नहीं है, यह हमारी रोजमर्रा की आदत बननी चाहिए, याद रखे - “एक छोटी सी हिम्मत कई जिंदगियाँ बचा सकती हैं”

मै एक छोटी प्रेरणा दायी कविता भी सुनाना चाहूँगी!

**कविता:- “सतर्कता का दीप”**

जागो मन, जागो जन,  
बढ़ाओ मिलकर सबका तन-मन!  
गलत को रोकना ही हिम्मत है,  
सही को चुनना ही इबादत है!  
नज़र झुकाओ मत, आवाज़ दवाओ मत,  
सतर्कता से बड़ा कोई धर्म नहीं!!  
छोटी सी जागरूकता, बड़ा बदलाव लाती है!  
एक दीपक अंधकार हराती है!  
आओ संकल्प ले हम सब मिलकर,  
सतर्क रहे, समाज को सजग करे मिलकर

## आचरण में सतर्कता

आदित्य नारायण मिश्रा  
प्रबंधक (बॉ. एवं पा. हा.), कोटेश्वर

मनुष्य होने के साथ प्रत्येक मनुष्य की एक विशेष परिस्थिति भी समाज में है और उस परिस्थिति के अनुसार उसके विशेष कर्तव्य भी होते हैं। आप देश के सामान्य नागरिक हैं, इसलिए नागरिकता के सामान्य कर्तव्य का पालन तो आपको करना ही है। इसके साथ ही आप किसी के पिता, किसी के पुत्र, किसी के पति, किसी के भाई भी है। समाज में आपके दूसरे सैकड़ों संबंध हैं और उन संबंधों के अनुसार विभिन्न कर्तव्य, विभिन्न दायित्व आपके हैं, उनका निर्वाह भी आपको ही करना है। यह नहीं भूलना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी का आदर्श है। उसके पुत्र, मित्र, सेवक उसका अनुकरण करते हैं। इसलिए हमारा अपना आचरण केवल हमको ही प्रभावित नहीं करता, अपितु उसका हमारे समीपस्थों-आश्रितों पर भी प्रभाव पड़ता है। हम अनेकों लोगों के अभ्युत्थान या पतन का भी निमित्त अपने आचरण से ही बनते हैं। इसलिए हमें अपने कर्तव्य निर्वाह के लिए बहुत ही सतर्क रहने की आवश्यकता है और जीवन के हर क्षेत्र में अपने आचरण में सतर्कता बरतने की जरूरत है, जिससे लोग उसे अपने अंदर उतार सकें।

## सतर्कता हमारी साझा जिम्मेदारी

श्रीमती अमरुथा नगराले

पत्नी श्री नगराले सुमेध देओराव, वरि. प्रबंधक (डिजाइन सिवल)

सतर्कता का अर्थ है चौकन्ना रहना, सजग रहना और अपने आस-पास क्या हो रहा है, इसके प्रति जागरूक रहना। आज की दुनिया में सतर्कता केवल सरकार या सुरक्षा बलों का कर्तव्य नहीं है, बल्कि हर नागरिक की जिम्मेदारी है। यह हमें भ्रष्टाचार, अपराध, आतंकवाद और दुर्घटनाओं जैसी खतरों से बचाने में मदद करती है।



जब लोग सतर्क रहते हैं तो वे गलत कार्यों को शुरूआती चरण में ही रोक सकते हैं। उदाहरण के लिए, संदिग्ध गतिविधियों की सूचना देना, संसाधनों का लापरवाही से उपयोग न करना और रिश्वतखोरी का विरोध करना सतर्कता के छोटे-छोटे कार्य हैं जो बड़ा बदलाव लाते हैं। स्कूलों में छात्र नियमों का पालन करके, बुलिंग के खिलाफ आवाज उठाकर और दूसरों की मदद करके सतर्कता दिखाते हैं। कार्यस्थलों पर कर्मचारी ईमानदारी, पारदर्शिता और सुरक्षा बनाए रखकर सतर्क रह सकते हैं।

साझा जिम्मेदारी का अर्थ है कि केवल कोई एक व्यक्ति या संस्था समाज की सुरक्षा नहीं कर सकती। हर किसी को अपनी भूमिका निभानी होगी। एक सतर्क समाज अधिक मजबूत, सुरक्षित और एकजुट होता है। यह ऐसा वातावरण बनाता है जहां न्याय और निष्पक्षता कायम रहती है।

अंत में, सतर्कता एक दिन का कर्तव्य नहीं, बल्कि जीवनभर की आदत है। यदि हर व्यक्ति सतर्क और जिम्मेदार बना रहे तो मिलकर हम एक सुरक्षित, भ्रष्टाचार-मुक्त और प्रगतिशील राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं।



# हाइड्रो पॉवर से आगे....



विद्युत क्षेत्र में प्रतिबद्धता व उत्कृष्टता के साथ  
विविधीकरण से एक बड़ी

## विश्वस्तरीय भूमिका निभाने को अग्रसर



सौर ऊर्जा



ताप ऊर्जा



पवन ऊर्जा



परामर्श सेवाएं



टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड  
**THDC INDIA LIMITED**  
(श्रेणी-क मिनी रत्न, सरकारी उपक्रम)  
(Schedule-A Mini Ratna, Government PSU)

गंगा भवन, बाई पास रोड, प्रगति पुरम,  
ऋषिकेश-249201 (उत्तराखण्ड)  
Ganga Bhawan, By-Pass Road, Pragatipuram,  
Rishikesh-249201 (Uttarakhand)  
Website : [www.thdc.co.in](http://www.thdc.co.in)

## PART-VI

Essay Written on theme  
by School Students During  
Vigilance Awareness  
Campaign-2025

## सतर्कता हमारी साझा जिम्मेदारी

नंदिनी पुण्डीर  
राजकीय बालिका इंटर कॉलेज  
नरेन्द्र नगर, टिहरी गढ़वाल

“आज, जन-जन को यह विचार फैलाना है  
सतर्क भारत समृद्ध भारत को आधार बनाना है”

भारत विश्व का एकमात्र ऐसा देश है, जो अपनी एकता, अखण्डता, संस्कृति, विरासत, रहन-सहन इत्यादि के लिए विश्व प्रसिद्ध है। जो प्राचीन समय में ‘सोने की चिड़िया’ के नाम से प्रसिद्ध था, किन्तु अंग्रेजी शासन ने अपनी गंदगी भरी नीतियों से हमारी धरा को बिल्कुल खोखला कर दिया कुछ समय बाद भारत में गरीबी, बेरोजगारी इत्यादि बुराईयों का शिकंजा कस गया, जो आज भी अपनी मज़बूत जड़े फहलाए हुए है। वर्तमान समय में अंग्रेज तो देश छोड़ कर चले गए किन्तु ऐसा लगता है, मानो अपने द्वारा फहलाई गंदगी आज भी यही लोगों में विद्यमान है, जोकि भ्रष्टाचार, घूसखोरी, आतंकवाद, कालाधन इत्यादि के रूप में सामने आती रहती हैं।

आज यह कैसा मंजर छाया है,  
बेटा ही अपनी भारत माँ को  
गंदा करने आया है,  
भ्रष्टाचार, घूसखोरी दे रहा है परिणाम  
क्या ऐसे ही होगा अब भारत का उद्धार .....

वर्तमान समय में जहाँ भी देखो, जिस क्षेत्र में भी देखो कोई न कोई कोई बुराई देखने को अवश्य मिलती है जिसका मुआवजा सिर्फ आम जनता को उठाना पड़ता है। हमे बचपन से ही सिखाया जाता है – “यह डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है, बसेरा, वो भारत देश है, मेरा - 2. जहाँ सत्य, अहिंसा और धर्म का पग-पग लगता है डेरा, वो भारत देश है मेरा । किन्तु आज चंद लोगों के लालच को देखते हुए यह गीत गलत साबित होता आ रहा है।

“सतर्कता जीवन का है मुख्य आधार  
भारत को बना सकता है, जो सम्पूर्ण ईमानदार”

वर्तमान समय में यह सोचनीय बात है, कि क्या भारत को अगर हमें सभी बुराईयों से मुक्त बनाना है, तो केवल सरकार द्वारा ही यह कार्य संभव हो सकता है ?? तो मेरा मानना है नही ..... । जब तक हर इंसान अपने अधिकारों, अपने हक के लिए निडर होकर सामने नही आएगा तो मैं नही समझती कि भारत इस शिकंजे से बाहर निकल पाएगा। आज मुझे बुजुर्गों द्वारा कही गयी बात याद आती कि जीवन भले ही कम जिया जाए किन्तु जो भी जिया जाए सम्मान से जिया जाए ।

सतर्कता का अर्थ है, विशेष रूप से कर्मियों और सामान्य रूप से संस्थानों की दक्षता एवं प्रभाव - शीलता की प्राप्ति के लिए स्वच्छ तथा त्वरित प्रशासनिक कारवाई सुनिश्चित करना । क्योंकि यह अक्सर देखा गया है, कि जिस समाज में देश जागरुकता और सतर्कता नही होती, उसे बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ता है ।

सतर्कता जागरुकता सप्ताह भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई में केंद्रीय सतर्कता आयोग की सहभागी सतर्कता पहलों में से एक है। जिसका उद्देश्य सभी हितधारकों को एक साथ लाना है। आयोग सभी नागरिकों के सक्रिय समर्थन और भागीदारी के साथ ईमानदारी को बढ़ावा देने और भ्रष्टाचार को खत्म करने का प्रयास करता है।

अतः आवश्यक है, कि हर व्यक्ति अपने सम्मान व हक के लिए खुद सामने आए। सामान्य नागरिकों को बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं - जैसे :- सूचना का अधिकार, जागो ग्राहक जागो इत्यादि इनका उपयोग करके मनुष्य चाहे 'तो खुद अपनी भारत माँ को इस जेल से बचा सकते हैं, सबसे अहम बात तो यह है, कि व्यक्ति अपने विचारों को शुद्ध करें, गंगा सा पावन करें तो मैं नहीं समझती 'कि कोई भी रावण इस धरती पर जन्म ले सकता है और मैं यह सम्पूर्ण विश्वास के साथ कह सकती हूँ, जब अपने हक के लिए और बुराईयों के खिलाफ आवाज़ उठाएगा भारत, तभी तो आगे बढ़ेगा भारत।

जागो ग्राहक जागो यह बात जन-जन पहचानी है  
गरीबी भृष्टाचार हटाकर नयी नींव बनानी है,  
सतर्कता ही लहर दौड़कर भारत की करनी नयी भविष्यवाणी है।



## Topic - Vigilance Our Shared Responsibility

Anchal Rawat, Class – XII  
G.G.I.C. Narendra Nagar

### Introduction

Vigilance means alertness, watchfulness, and awareness in day-to-day life. It is the ability to observe carefully, identify wrong practices, and take steps to prevent harm to society. Vigilance is not only the responsibility of government authorities or police officers but also of every fact, vigilance becomes meaningful only when each individual performs their part with honesty and sincerity, that is why it is rightly said that "Vigilance is our shared responsibility".

### THE IMPORTANCE OF VIGILANCE

In a rapidly developing world, new challenges like corruption, cybercrime, terrorism, environmental damage, and social injustice keep arising. To tackle these issues, vigilance is essential. A vigilant society can detect problems in the early stage and stop them before they cause greater harm. For example, if citizens remain alert about misuse of public funds, fake news, or illegal activities, then corruption and crime can be controlled.

### VIGILANCE IN DAILY LIFE

Vigilance in daily life - vigilance is not limited to government offices it begins at home, school and workplace. At home family members should be alert about health, safety, and proper use of resources in school, students must be vigilant about discipline, honesty in examinations, and respect towards rules. At workplaces, employees must report unethical practices and assure transparency. In society, people should raise their voice against injustice, exploitation, and harmful traditions.

### AWARENESS AND RESPONSIBILITY

Awareness and Vigilance go hand in hand. Only an aware citizen can become a vigilant one if we know our own rights and duties, then we can fight against casting practices with confidence, but awareness alone is not enough; we must also accept responsibility for example, if we see someone breaking traffic rules, it is our responsibility to discover and change such behaviour instead of ignoring it.

### ROLE OF GOVERNMENT AND CITIZENS

While the government creates laws and monitoring systems, citizens play an equally important role in implementing them. Anti-Corruption bodies, vigilante commissions, and transparency laws are effective only when people cooperate with them. Whistle-blowers, social activists, and even ordinary citizens have shown how vigilance can change the system for the better, thus good governance is possible only when both government and people share the responsibility of vigilance.

### VIGILANCE IN BUILDING A BETTER NATION

A vigilant society creates a strong nation when people are alert, honest, and disciplined, the country moves toward progress in every field - economy, education, healthcare, technology,

and governance history has shown that nations that ignore vigilance suffer from corruption... inequality and backwardness, whereas nations that value vigilance vice to greatness.

## MEANING OF VIGILANCE

The word vigilance comes from the Latin word "vigilare" which means to keep watch " In modern times, vigilance has two important dimensions:

- 1) **Personal Vigilance** - being alert in our behaviour, choices, and honesty.
- 2) **Social Vigilance** - staying aware of the activities in our surroundings and raising our voice against corruptions, crime, and Injustice.

## WHY VIGILANCE MATTERS

Without vigilance, a society falls prey to many problems: Corruption, injustice, fraud, inequality and lawlessness. Corruption in particular is like a slow poison. it eeks away. at the progress of a nation. Every rupee lost to corruption as a rupee stolen from a poor child's education, from a patient's medicine or from a farmer's support.

Imagine if people remain silent when they see a bribe being offered or ignore when public money is misused. carelessness in such moments allow corruption to grow stronger. but when ordinary people become vigilant, raise their voices, and refuse to participate in dishonest practices, corruption begins to lose its power.

That is why vigilance is not optional - it is essential for democracy, development, and fairness.

## CONCLUSIONS

Vigilance is more than a word -It is a way of living with integrity. It is the responsibility of every student, teacher, Officer, leader, and dishonesty cannot survive in a society where people are alert responsibility true, and courageous.

Let us remember: the price of freedom and is not paid in money or power, but in vigilance. progress Id we all take this responsibility together, we can build a Corruption- free, fair and prosperous India, and set an example for the world.

"Therefore, vigilance is not just a duty - it is our shared responsibility.



## “सतर्कता हमारी साझा जिम्मेदारी”

साक्षी, कक्षा – 10<sup>th</sup>  
राजकीय बालिका इंटर  
कॉलेज नरेन्द्रनगर (टिंगो)

सतर्कता हमारी साझा जिम्मेदारी  
“सतर्कता को अपनाकर जागरूकता को  
फैलाना है,  
भारत को भ्रष्टाचार से मुक्त बनाना है”

प्रस्तावना :- किसी भी राष्ट्र के विकास हेतु उस राष्ट्र के नागरिकों का सतर्क और जागरूक होना अति आवश्यक होता होता है। आज के समय में पूरे देश में प्रष्टाचार व्याप्त है। अतः इस फैलने भ्रष्टाचार के प्रति (भारत के नागरिकों को सतर्क करने हेतु केंद्रीय सतर्कता आयोग प्रत्येक वर्ष अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाना है। सतर्कता हमारी साझा जिम्मेदारी" एक ऐसा विचार है जो एक स्वच्छ, ईमानदार और न्यायपूर्ण समाज के निर्माण के महत्व को दर्शाता है। यह केवल व्यक्तिगत कर्तव्य नहीं, बल्कि सामूहिक प्रयास का प्रतीक है।

सतर्कता का अर्थ क्या है :- सतर्कता का अर्थ है सावधानी और चौकस रहने की मानसिक अवस्था, जिसमें संभावित खतरों या समस्याओं की पहचान करने और उन्हें रोकने के लिए लगातार निगरानी रखी जाती है। यह किसी संगठन की अंखडता और कुशलता बनाए रखने कूष्टचार और दुराचार को रोकने तथा नियमों प्रणालियों में सुधार करने के लिए अपनाई जाने वाली वह प्रक्रिया है। सतर्कता निवारक और प्रतिक्रियात्मक हो सकती है। जिसमें कर्मचारियों को शिक्षित करना, ( जाँच-पड़ताल करना और दोषी पाए जाने पर अनुशासना तक कार्रवाई करना शामिल है।

भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई :- भ्रष्टाचार के विभिन्न रूपों का वर्णन करें और- समाज पर इसके नकारात्मक प्रभाव बताएँ। बताएँ कि पारदर्शिता और नैतिकता कैसे भ्रष्टाचार को कम करने में मदद करती है। नागरिकों की भूमिका का उल्लेख करें कि वे विचौलियों से बचें और सीधे संबंधिक विभागों, में संपर्क करें, जिससे भ्रष्टाचार से बचा जा सके।

नागरिकों और संस्थाओं की भूमिका :- अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहने के लिए प्रोत्साहित करें। ऑनलाइन लेन-देन करते समय सतर्क रहने और केवल अधिकृत प्लेटफार्मों का उपयोग करने की सलाह दें। स्थानीय "बुनियादी ढांचे, जैसे सड़क और बिजली आपूर्ति में गड़बड़ी पाए जाने पर शिकायत दर्ज करने पर का आग्रह करें। सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्रों में सतर्कता के महत्व पर प्रकाश डालें। कर्मचारियों के लिए नैतिकता और निष्पक्षता कर पर प्रशिक्षण आयोजित करने का सुझाव दें।

जागरूकता और सांस्कृतिक अंदोलन :- सतर्कता को एक सांस्कृतिक अंदोलन के रूप में बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल दें, जिसे सभी को मिलकर अपना होगा। सतर्कता जागरूकता सप्ताह जैसे अभियानों के महत्व पर चर्चा करें जो नैतिकता और पारदर्शिता के प्रति संवेदनशीलता पैदा करते हैं। प्रभावी संचार, बेहतर संबंधों, सूचित निर्णीय लेने और समावेशिता को बढ़ावा देने के लिए सांस्कृतिक जागरूकता विकसित करना है।

देश में भ्रष्टाचार क्यों बढ़ रहा है :- देश में भ्रष्टाचार जिनमें जटिल नियम और कानून, अपारदर्शी सरकारी प्रक्रियाएँ बढ़ने के कई कारण हैं, पारदर्शिता की कमी, संस्थापन कमजोरियाँ, राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी और जनता में जागरूकता का अभाव शामि है। भ्रष्टाचार से निपटने के लिए सार्वजनिक खरीद में ई-टेडरिंग और ई-गवर्नेंस को बढ़ाना देना, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) लागू करना, जनता को जागरूक करना और भ्रष्ट अधिकारीयों को दंडित करना आवश्यक जनता का जागरूक न होना और भ्रष्टाचार का बहिष्कार न करना भी एक कारण है। नियमों, कानूनों और प्रक्रियाओं में पारदर्शिता की कमी से भ्रष्टाचार पनपता है।

सतर्कता के प्रति जागरूक कैसे करें :- लोगों को सतर्कता के प्रति जागरूक करने के लिए आप प्रशिक्षण और जागरूकता अभियान चला सकते हैं, जिसमें भ्रष्टाचार के दुष्परिणामों, नैतिक आचरण के महत्व और सामूहिक भागीदारी को बढ़ावा दिया जाए। इसके अतिरिक्त, नियमित जाँच, शिकायत निवारण प्रणाली को सुदृढ़ करना, ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देना, और पारदर्शिता व जवाबदेही बढ़ाने ल लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करना भी महत्वपूर्ण है। अंत में, जिम्मेदार नागरिक के रूप में आत्म- मूल्य मूल्याकान और दृढ़ प्रतिबद्धता का प्रदर्शन करना भी लोगों को प्रेरित करेगा। प्रशिक्षण के माध्यम से लोगों और कर्मचारियों में सतर्कता के महत्व और भ्रष्टाचार के खतरों के बारे में जागरूकता पैदा करें। विभिन्न क्षेत्रों में जांच आयोजित करें ताकि किसी भी अनियमितता का पता लगाया जा सके।

**निष्कर्ष:-** किसी भी राष्ट्र के विकास हेतु उस राष्ट्र के नागरिकों का सतर्क और जागरूक होना अति आवश्यक है। भ्रष्टाचार-रोधी अभियानों को बढ़ावा देना, सरकारी वेबसाइटों पर विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराना, सोशल मीडिया और अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों का उपयोग करना, ऑनलाइन शिकायतों के लिए आसान पहुँच सुनिश्चित करना, और कर्मचारियों व आम जनता के लिए कार्यशालाओं और प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करना। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ई-मेल और व्हाट्सएप जैसे माध्यमों का उपयोग करके जागरूकता फैलानी चाहिए।

**“एक कदम सतर्कता की ओर,  
करोड़ो कदम सशक्त भारत की ओर ।**



## सतर्कता: हमारी साझा जिम्मेदारी

Km. Aditi Bhatt, Class- 11<sup>th</sup>

Narendra Mahila Vidhyalay Inter Collage, Bhagirathipuram, Tehri

सपनों का भारत तभी बनेगा  
जब सत्य व सदाचार संग चलेगा...

**प्रस्तावना:-** अवैध तरीखे से धन अर्जित करना भ्रष्टाचार कहलाता है, यह वह दीमक है जो देश को अंदर-ही-अंदर खोकला करते जा रहा है, केन्द्रीय तथा राष्ट्रीय सतर्कता आयोग द्वारा (CVC) यह सतर्कता सप्ताह मनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य हर व्यक्ति को भ्रष्टाचार के खिलाफ सतर्क करना है। हर व्यक्ति का धर्म है कि वह सत्य व सदाचार की भावना रखे व ईमानदार और कर्तव्य निष्ठ रहे, यदि हम सभी देशवासी मिलकर सतर्कता को महत्व देंगे तो भ्रष्टाचार स्वतः ही खत्म हो जाएगा, तथा देश में सदाचार व पारदर्शिता बनी रहेगी, हमें इसकी शुरुआत स्वयं से करनी होगी, यदि हम शिक्षित व सतर्क रहेंगे तो ही हम सभी को सतर्कता का महत्व बता सकेंगे।

न जागरूकता बिना विकास  
न सतर्कता बिना विश्वास....

**सतर्कता का अर्थ:-** जिस प्रकार एक दीप अंधकार को नहीं मिटा सकता उसी प्रकार अगर कई दीप मिलाकर साथ रखे जाएँ तो वह हर तरफ उजाला व प्रकाश फैला देते हैं, यदि हर व्यक्ति ईमानदारी, जिम्मेदारी, व अपने कर्तव्य का पालन करेगा तो भ्रष्टाचार धीरे-धीरे स्वतः ही खत्म हो जाएगा, हमें भ्रष्ट व्यक्तियों को रोकना होगा जो अवैध तरीखे से धन अर्जित करते हैं व देश की पारदर्शिता को भंग करते हैं, हम सभी को मिलकर भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग लड़नी होगी व सभी को जागरूक करना होगा तभी एक विकास युक्त भारत व धार्मिक भारत का निर्माण होगा। हर व्यक्ति को इसमें अपनी ईमानदारी को समझकर देश के विकास के लिए कार्य करना होगा, हमें हर रूप से सभी व्यक्तियों को यह बात समझानी होगी कि यह भ्रष्टाचार धीरे-धीरे हर तरफ से सत्य व सदाचार को खत्म करते जा रहा है, हमें साथ मिलकर इसका निवारण करना होगा।

देश के प्रति अपना सम्मान दिखाओ,  
भ्रष्टाचार रूपी इस राक्षस को मिटाओ,

**व्यक्तिगत जीवन में सतर्कता:-** सर्वप्रथम हमें यह ज्ञात होना चाहिए कि भ्रष्टाचार रूपी राक्षस को हमें खत्म करना है अपने भारत देश को समृद्ध बनाना है और इसकी शुरुआत हम स्वयं से शुरू करते हैं कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे और हर भ्रष्ट व्यक्तियों को कठोर-से-कठोर दंड दिलवाएंगे, कभी अवैध कार्य नहीं करेंगे व भ्रष्टाचार को खत्म करके दिखायेंगे, यदि हम स्वयं के व्यक्तिगत जीवन में सतर्कता रखेंगे तो अर्धम, अपराध, भ्रष्टाचार को खत्म होना ही पढ़ेगा तथा देश में पारदर्शिता बनी रहेगी। भ्रष्टाचार के लिए हर व्यक्ति को सतर्क होने की अत्यतं आवश्यकता है क्योंकि आजकल हर तरह से भ्रष्टाचार को कोई-न-कोई बढ़ावा दे ही रहा है इसलिए सरकार को कोई ऐसा ठोस कदम उठाना चाहिए जिससे अपराधियों को त्वरित दंड मिल सकें।

लालच की राह भटकाए नहीं,  
सच्चाई से दिल डराए नहीं।  
हर ठोस-से ठोस कदम उठाना है,  
भ्रष्टाचार को मिटाना है।

**सामाजिक जीवन में सतर्कता:-** देश में पारदर्शिता नागरिकों की ईमानदारी व जिम्मेदारी से आती है। यदि किसी को ध्यानपूर्वक व कृत्वान, ईमानदार रहकर किया जाए तो वह स्वतः ही पूर्ण होता है, उसी प्रकार हमने अगर ठान लिया है कि हम भ्रष्टाचार को बढ़ावा नहीं देंगे तो अब इसपे ईमानदार रहकर कार्य करना ही होगा। हर मनुष्य का देशवासी का कर्तव्य बनता है कि वह अपने देश को विकास के पथ पर आगे बढ़ाए इसलिए हमें अब भ्रष्टाचार को खत्म कर सतर्कता को अपने सामाजिक, व्यक्तिग जीवन में ग्रहण करना होगा।

**चोरी चकारी छोड़ो स्वच्छता अपनाओं  
सतर्क रहो सजक रहो  
समृद्ध भारत बनाओ।  
व अब भ्रष्टाचार को मिटाने का  
एक ठोस कदम उठाओ।**

**राष्ट्रीय स्तर पर सतर्कता:-** राष्ट्रीय स्तर पर सतर्कता से अभिप्राय है कि देश के हित के प्रति जागरूक रहना व सभी कों इसका महत्व बताना ही राष्ट्रीय सतर्कता है, सजक व ईमानदार रहकर हम हर व्यक्ति को सतर्क कर सकते हैं यह एकदम नहीं परन्तु धीरे - धीरे कम जरूर हो सकता है। सरकार द्वारा सतर्कता को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, व केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा (CVC) सतर्कता को बढ़ावा भी दिया जा रहा है।

**हम सबने यह ठाना है,  
देश को सत्य व सदाचार युक्त बनाना है।  
भ्रष्टाचार को हमे अब  
एक साथ मिलकर मिटाना है।**

**निष्कर्ष:-** हमें एक जुट होकर सतर्कता "को बढ़ावा देना होगा। सतर्कता को अपनाने का अर्थ के ईमानदारी से सजक रहकर स्वयं के साथ-साथ अन्य व्यक्तियों को भी जागरूक करना है इसलिए (CVC) द्वारा सतर्कता सप्ताह मनाया जा रहा है, हमें तकनीकी-व-ई गवर्नेंस की होने वाली धोखा-धडियों से बचना होगा यह सतर्कता के तरफ हमारा पहला कदम जरूर होगा परन्तु इसी से अन्य कार्य में प्रगती होगी, ऑनलाइन धोखे से स्वयं को सतर्कता को बर्तना व देश के विकास के लिए भ्रष्टाचार रूपी राक्षस को खत्म करना, जागरूकता से ही विकास है और सतर्कता से ही विश्वास है। देश के हित-धारकों का सहयोग कर हम भ्रष्टाचार को कम कर सकते हैं। इसलिए हमें सामूहिक भागीदारी व नैतिक शिक्षा का प्रयोग करना होगा।

**सतर्कता है शक्ति हमारी,  
भ्रष्टाचार मिटे जिम्मेदारी सारी,  
देश प्रगति तभी करेगा  
सत्य व सदाचार जब संग चलेगा....  
हम सबने यह ठाना है,  
भ्रष्टाचार को दूर भगाना है,  
एक दीपक से अंधकार दूर नहीं होता है।  
परन्तु कई दीप मिलकर प्रकाश उत्पन्न करते हैं।**

## सतर्कता: हमारी साझा जिम्मेदारी

Km. Teena, Class- 8<sup>th</sup>,

Tehri Bandh Pariyojna Inter Collage, Bhagirathipuram, Tehri.

**प्रस्तावना:-** सतर्कता हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक होती है। यह न केवल हमें सुरक्षित रखती है, बल्कि हमें जिम्मेदार नागरिक भी बनाती है। सतर्कता का अर्थ है अपने आस पास के वातावरण तथा गतिविधियों के प्रति सतर्क रहना, हमें हर समय सतर्क रहना चाहिए। चाहे वो सड़क पे चलना हो, या किसी ऑनलाइन गतिविधि में शामिल होना, सतर्कता हमें सुरक्षित व जिम्मेदार बनाती है।

**सतर्कता:-** समृद्ध भारत को अगर अपना सपना पूरा करना है तो हमें सतर्क और पारदर्शी होना ही होगा। हमारी पारदर्शिता समाज को बेहतर बनाने तथा लोकतांत्रिक व्यवस्था में आम आदमी की जिम्मेदारी को पुनः प्रतिस्थापित करने में मदद करती है। मेरा मानना है कि एक सतर्क व्यक्ति ही देश के विकास में अहम योगदान दे सकता है। आजकल के समय में सतर्कता और भी महत्वपूर्ण हो गई है।

**सतर्कता जागरूकता का अर्थ क्या होता है:-** सतर्कता जागरूकता सप्ताह भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई में केन्द्रीय सतर्कता आयोग की सहभागी सतर्कता पहलुओं में से एक है। यह सतर्कता जागरूकता एवं आऊटरीज का एक उपाय है। जिसका उद्देश्य सभी हितधाएँकों को एक साथ लाना है। सतर्कता हमारे जीवन का बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। जो हमें सुरक्षित व जिम्मेदार बनाता है। यह न केवल व्यक्तिगत जीवन बल्कि समाज और राष्ट्र निर्माण में भी बहुत अहम भूमिका निभाई है। सतर्कता हमारी साझा जिम्मेदारी है। क्योंकि जब तक हम सतर्क रहेंगे तब तक हमारा समाज और राष्ट्र सुरक्षित व जिम्मेदार रहेगा। हमें अपने आस पास के खतरों से बचने के लिए सतर्क रहना होता है।

**सतर्कता का महत्व:-** सतर्कता का हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण पहलू होता है, सतर्कता हमारे निर्णयों में सुधार लाती है तथा हमें जिम्मेदार बनाती है। जब तक हम सतर्क रहेंगे तब तक हम सुरक्षित रहेंगे।

**सतर्कता कैसे बढ़ाएँ:-** सतर्कता बढ़ाने के लिए हमें कई चीजें करनी पड़ती हैं। अपने कार्य के परिणामों पर विचार करना पड़ता है समाज तथा राष्ट्र के प्रति सतर्क व जिम्मेदारी रहना पड़ता है। सुरक्षा, जिम्मेदारी आदि के सामूहित प्रयास भी करने चाहिए।

**सतर्कता से लाभ:-** सतर्कता से हमें कई तरह के लाभ होते हैं

- सतर्कता हमें सुरक्षित व जिम्मेदार बनाती है।
- हमारे परिणामों में भी सुधार लाती है।
- यह हमारे समाज और राष्ट्र के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
- हमें आजकल के होने वाले स्कैम से बचाती है।

**सतर्कता ही एकमात्र उपाय**

**जो हमें सतर्क बनाए**

**एक पथ पर चलना सिखाए**

**दूसरी ओर सर्वश्रेष्ठ बनाए।**

**असतर्कता के परिणाम:-** परिवार टूटने लगते हैं, समाज में अव्यवस्था फैलती है राष्ट्र पिछड़ जाता है। व्यक्ति दुखी तथा

असफल होने लगता है। इतिहास गवाह है। असतर्कता और गैर जिम्मेदारी मनुष्य को कभी सफलता की सीढ़ी नहीं चढ़ने देती।

**भारत रंग नहीं आतंकवाद का**  
**न ही रंग है भ्रष्टाचार का**  
**यह तो रंग है सतर्कता का**  
**समृद्धि जिसका आधार है।**

**असतर्कता से हानि:-** असतर्कता से हमें कई प्रकार की हानी होती है

- ज्यादा दुर्घटना व चोटे
- आर्थिक नुकसान
- स्वास्थ्य नुकसान
- समय तथा संसाधनों की बर्बादी

**हिंसा तथा द्वेष को मिटाकर हमें**  
**नई ज्योति जलाकर हमें**  
**सतर्कता को अपनाकर हमें**  
**भारत को समृद्ध बनाना है।**

### **साइबर क्राइम के प्रकार**

**हैकिंग:-** बिना अनुमति किसी के कम्प्यूटर तथा नेटवर्क में प्रवेश करना।

**फिशिंग:-** नकली वेबसाइट तथा ईमेल से व्यक्तिगत पहचान चुराना।

**साइबर:-** बुलिंग शोसल मीडिया पर लोगों की अश्लील फिल्म बनाकर उन्हें बदनाम व अपमानित करना।

**ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड:-** लोगों के खातों से पैसे निकालकर नकली लेन-देन करना।

### **साइबर क्राइम के प्रभाव**

**व्यक्तिगत प्रभाव:-** आर्थिक स्थिति खराब होना, मानसिक तनाव पहचान की चोरी।

**सामाजिक प्रभाव:-** बदनाम होने पर आत्महत्या तक कर लेना।

**आर्थिक नुकसान:-** लोगों के खातों से पैसे निकालना।

### **साइबर क्राइम से कैसे बचे**

मजबूत पासवर्ड का उपयोग करें।

अपने मोबाइल सिस्टम को अपडेट करते रहें।

सुरक्षा सॉफ्टवेयर से अपने कम्प्यूटर को सुरक्षित रखें।

शोसल मीडिया को निजी एक्से।

**निष्कर्ष:-** सतर्कता हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमें सतर्कता को अपनाना चाहिए, सतर्कता हो सुरक्षित रखने के साथ-साथ हमें जिम्मेदार भी बनाती है। और एक सतर्क राष्ट्र व समाज का निर्माण करती है। तो आइए अपने जीवन में सतर्कता अपनाइए और देश को समृद्ध बनाइए।



## सतर्कता - हमारी साझा जिम्मेदारी

कनिका नेगी, कक्षा 7<sup>th</sup>,  
जी. जी. आई.सी. नरेंद्र नगर

**प्रस्तावना :** सोने की चिड़िया जो था कहलाता, ऐसा भारत हमारा था ।

सतर्कता से ही हमको, इसको फिर से समृद्ध बनाना है ॥

हर समाज की सफलता, प्रगति और सुरक्षा उसके नागरिकों की सजगता और सतर्कता पर निर्भर करती है । किसी भी देश में भ्रष्टाचार, लापरवाही, अनुशासनहीनता और अपराध तब पनपते हैं जब नागरिक और संस्थाएं अपनी जिम्मेदारियों से मुह मोड़ लेते हैं । ऐसे में सतर्कता केवल सरकारी संस्थाओं या सुरक्षा एजेंसियों की ही जिम्मेदारी है । जब हर नागरिक जागरूक और सजग होता है, तभी एक आदर्श, सुरक्षित और समृद्ध समाज की स्थापना संभव हो पाती है ।

### सतर्कता का अर्थ

सतर्कता का सामान्य अर्थ है – सावधान रहना, परिस्थितियों का सही मूल्यांकन करना और रहते उचित कदम उठाना । यह न केवल बाहरी खतरों से बचाव की भावना है, बल्कि आत्म जिम्मेदारी का भी प्रतिक है । सतर्क व्यक्ति न तो स्वयं गलत करता है और न ही दूसरों को गलत करने देता है ।

इस भारत भूमि पर जन्म लिए,

तो इसका कर्ज उतारेंगे ।

सतर्कता अपनाकर ही तो, इसको समृद्ध बनायेंगे ।

### सतर्कता क्यों जरुरी है ?

1. **भ्रष्टाचार रोकने में :** जब लोग सतर्क रहते हैं, तो रिश्वत, घोटालों और बेर्इमान को उजागर किया जा सकता है । नागरिक यदि सरकारी योजनाओं, अधिकारों और प्रक्रियाओं के प्रति सजग हो, तो प्रशासन में पारदर्शिता बनी रहेगी ।
2. **सुरक्षा के लिए :** देश की आतंरिक और बाहरी सुरक्षा के लिए नागरिकों की सतर्कता बेहद जरुरी है । संदिग्ध गतिविधियों की सूचना देना, सार्वजनिक स्थानों पर सावधानी रखना आदि छोटे कदम बड़े परिणाम ला सकते हैं ।
3. **सामाजिक जिम्मेदारी निभाने में :** सड़क की दुर्घटना होते देख सहायता करना, पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक रहना, सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध आवाज़ उठाना – यह सब सतर्कता की मिसालें हैं ।

### साँझा जिम्मेदारी कैसे ?

सतर्कता का भार केवल सरकार या कुछ खास लोगों पर डालना पर्याप्त नहीं है । हर वर्ग – छात्र, शिक्षक, व्यापारी, कर्मचारी, किसान गृहिणी – सभी को अपनी भूमिका निभानी होगी । उदाहरण के लिए :

- एक छात्र यदि किसी गलत गतिविधियों को देखकर शिक्षकों को सूचित करता है ।
- एक उपभोक्ता अगर गलत बिलिंग या मिलावट की शिकायत करता है । तो वह अपने कर्तव्य का पालन करता है ।
- जब हर व्यक्ति अपने स्तर पर सजग होता है, तो पुरे समाज में एक सकारात्मक बदलाव आता है ।

### सरकार और समाज की भूमिका

सरकार को चाहिए कि वह नागरिकों में सतर्कता के प्रति जागरूकता फैलाए, इमानदारों को प्रोत्साहित करें और दोषियों को दण्डित करें । वहीं, समाज को भी चाहिए की वह न केवल सतर्कता बरते बल्कि दूसरों को भी जागरूक करें । स्कूलों, कार्यालयों, पंचायतों और मिडिया के माध्यम से वह सन्देश फैलाया जा सकता है ।

### निष्कर्ष :

“सतर्कता हमारी साझा जिम्मेदारी” केवल एक नारा नहीं, बाल्कि एक नैतिक आहान है । एक जागरूक, जिम्मेदारी और सतर्क नागरिक ही एक मजबूत लोकतंत्र की नींव रखती है । यदि हम सभी - अपनी भूमिका को इमानदारी से निभाए, तो न केवल भ्रष्टाचार और अपराध रूक सकते हैं, बल्कि हमारा देश हर क्षेत्र में प्रगति भी कर सकता है । आइए, हम सब मिलकर सतर्कता को अपनी आदत बनाएँ और एक स्वच्छ, सुरक्षित एवं जिम्मेदारी समाज की दिशा में कदम बढ़ाएँ ।



## सतर्कता हमारी साझा जिम्मेदारी

वैष्णवी उनियाल, कक्षा 8<sup>th</sup>,  
जी. जी. आई.सी. नरेंद्र नगर

भृत्याचार को जड़ से मिटाना होगा  
सतर्क और समृद्ध भारत बनाना होगा,

**प्रस्तावना :** सतर्कता हमारी साझा जिम्मेदारी है, जिसका अर्थ है कि हमें अपने आसपास के वातावरण और परिस्थितियों के प्रति सचेत रहना चाहिए यह हमारी व्यक्तिगत और सामूहित जिम्मेदारी है कि हम अपने जीवन को सुरक्षित और स्वस्थ बनाएं सतर्कता के महत्व को समझने और इसे अपनी दिनचर्या में शामिल करने से हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं

**सतर्कता का महत्व :** आज के तेज़ी से बदलते समय में, जब अपराधों दुर्घटनाओं और आपदाओं का खतरा हर समय रहता है तबै सतर्क रहना अत्यंत आवश्यक हो जाता है यह न केवल हमें अपने जीवन को सुरक्षित रखने में मदद करता है बल्कि समाज में भी अनुशासन और शांति बनाए रखने में योगदान देता है, उदाहरण स्वरूप एक व्यक्ति यदि ट्रैफिक नियमों का पालन करते हुए सड़क पर सतर्क रहता है तो वह खुद और दूसरों को दुर्घटना से बचा सकता है,

**सतर्कता की साँझा जिम्मेदारी:** सतर्कता की जिम्मेदारी हम सभी की साँझा जिम्मेदारी है हमें अपने परिवार समुदाय और समाज के प्रति जिम्मेदार बनना होगा हमें अपने आसपास के वातावरण को सुरक्षित और स्वच्छ बनाने के लिए काम होगा हमें दूसरों को भी सतर्कता के महत्व के बारे में जागरूक करना होगा,

**हम सतर्क तो देश सतर्क**

**हम जागरूक तो देश जागरूक**

### सतर्कता के लाभ:

सुरक्षित जीवन - सतर्कता हमें सुरक्षित जीवन जीने में मदद करती है

स्वस्थ जीवन - सतर्कता हमें स्वस्थ जीवन जीने में मदद करती है,

सफलता - सतर्कता हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करती हैं,

आत्मविश्वास - सतर्कता हमें आत्मविश्वास बढ़ाने में मदद करती हैं ।

### सतर्कता के लिए कदम

**जागरूकता** - हमें अपने आसपास के वातावरण के प्रति जागरूक बनना होगा और संभावित खतरों की पहचान करनी होगी

**सुरक्षा उपाय:** हमें सुरक्षा उपायों को अपनाना होगा, जैसे कि सुरक्षा उपकरणों का उपयोग करना और सुरक्षित व्यवहार करना,

**शिक्षा और जागरूकता** - हमें दूसरी को सतर्कता के महत्व के बारे में शिक्षित करना होगा और उन्हें जागरूक करना

होगा,

**सामुदायिक भागीरथी:** हमें सामुदायिक भागीरथी को बढ़ावा देना होगा और सतर्कता के लिए सामुदायिक कार्यक्रमों में भाग लेना होगा

**जब भारत का हर नागरिक, बनेगा जिम्मेदार, तभी खत्म होगा देश से भ्रष्टाचार**

### सतर्कता के लिए साझा प्रयास

सतर्कता के लिए साझा प्रयास करने से हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं हमें अपने परिवार समुदाय, और समाज के साथ मिलकर काम करना चाहिए और सतर्कता में महत्व को बढ़ावा देना चाहिए।

### सतर्कता के लिए सुझाव

**नियमित सुरक्षा जांच** - हमें अपने आसपास के वातावरण की नियमित सुरक्षा जांच करनी चाहिए

**सुरक्षा उपकरणों का उपयोग:** हमें सुरक्षा उपकरणों को उपयोग करना चाहिए जैसे कि हेलमेट, सीटबेल्ट आदि,

**सुरक्षित व्यवहार:** हमें सुरक्षित व्यवहार करना चाहिए, जैसे कि सड़क पर चलने के नियमों का पालन करना

**जागरूकता अभियान :** हमें जागरूकता अभियान चलाने चाहिए जिससे लोगों को सतर्कता के महत्व के बारे में जागरूक किया जा सके

### निष्कर्ष

सतर्कता हमारी साझा जिम्मेदारी है, और इसके लिए हमें एकजुट होकर काम करना होगा, हमें अपने आसपास को वातावरण के प्रति जागरूक बनना होगा और सुरक्षा उपायों को अपनाना होगा हमें दूसरों को भी सतर्कता के महत्व के बारे में शिक्षित करना होगा और सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देना होगा,

**आवाहन:** आइए, हम सभी सतर्कता की साझा जिम्मेदारी को समझे और इसके लिए काम करें आहए, हम अपने आसपास के वातावरण को सुरक्षित और स्वच्छ बनाने के लिए काम करें और दूसरों को भी सतर्कता के महत्व के बारे में जागरूक करें आइए हम एक सुरक्षित और जिम्मेदार समाज बनाने के लिए एकजुट हैं,



## “सतर्कता हमारी साझा जिम्मेदारी”

राधिका पुंडीर, , कक्षा 8<sup>th</sup>,  
जी. जी. आई.सी. नरेंद्र नगर

“सतर्कता को अपनाकर समृद्धि हम ले आयेंगे,  
भ्रष्टाचार को मिटाकर सम्पन्न भारत बनायेंगे”

**1. प्रस्तावना:** किसी भी राष्ट्र विकास हेतु इस राष्ट्र के नागरिकों की सतर्क और जागरूक होना अति आवश्यक है। आज के समय में पूर्ण देश में भ्रष्टाचार व्याप्त है।

अतः इस फैलते भ्रष्टाचार के प्रति भारत के नागरिकों को सतर्क करने हेतु केन्द्रीय सतर्कता आयोग प्रत्येक वर्ष अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाता है।

“जहाँ-जहाँ भ्रष्टाचार होगा,  
लोकतंत्र पर कडा प्रहार होगा”

**2. सतर्क भारत समृद्ध भारत अभियान:** केन्द्रीय सतर्कता आयोग के द्वारा हर साल अक्टूबर के अंतिम सप्ताह को सरदार वल्लभभाई पटेल के जन्मदिन के अवसर पर सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म ३१ अक्टूबर को हुआ था और भारत को एकत्रित जागरूक करने में सरदार वल्लभ भाई पटेल का बहुत बड़ा योगदान था। अतः इस्प वर्ष सतर्कता जागरूकता सप्ताह के अंतर्गत सतर्क आरत समृद्ध भारत अभियान चलाया जा रहा है। जिसमें लोगों को जागरूक कर भ्राचार से मुक्ति के प्रयासों पर जोर दिया जाएगा।

“भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाना होगा,  
सतर्क और समृद्ध भारत बनाना होगा।”

**3. सतर्कता जागरूकता सप्ताह को मनाने का उद्देश्य-** सतर्कता जागरूकता सप्ताह का उद्देश्य नागरिकों में भ्रष्टाचार के प्रभाव के संबंध में जागरूकता फैलाना है। प्रधानमंत्री के अनुसार “भ्रष्टाचार, आर्थिक अपराध, मादक पदार्थ, धनशोधन, आतंकवादी वित्त पोषण सभी आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं अतः हमें भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रणालीगत जाच और प्रभावी लेखा परिक्षण का काम मिलकर करना होगा,

केन्द्रीय सतर्कता आयोग का यह प्रयास है कि लोगों के बीच सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता और जवाबदेही को प्रोत्साहित किया जाए। सतर्कता को अपनाना है,

भारत को सतर्क व समृद्ध बनाना है”

**4. सतर्क भारत समृद्ध भारत अभियान की आवश्यकता:** इस प्रकार के अभियान के माध्यम से जागरूकता और सतर्कता फैलाने के प्रयास किये जाते हैं। हजारों लाखों की संख्या में लोग शामिल होते हैं। निरक्षण लोगों को समझने में आसानी होती है क्योंकि सतर्कता व जागरूकता उनके ही लोकल लोगों के द्वारा

फैलाई जा रही होती है। साथ ही रेडियो और टेलीविजन के माध्यम से उन्हे जागरूक करने के हर संभव प्रयास किये जाते हैं।

**"जन जन का यही है नारा  
सतर्क व समृद्ध हो देश हमारा "**

**सतर्कता जागरूकता सप्ताह का इतिहास:** सतर्कता जागरूकता साप्ताह के इतिहास की अगर बात की जाए तो इसकी शुरुआत सन 1999 में हो गयी थी लेकिन सन 2006 में इस मिशन के रूप में चलाने का प्रयास शुरू हुआ। आयोग के अनुसार इससे समाज के सभी वर्गों खासकर युवाओं का ध्यान एक ईमानदार, गैर-भेदभावपूर्ण और भ्रष्टाचार मुक्त समाज के निर्माण करने की तरफ आकर्षित होगा और समाज को वैचारिक रूप से स्वच्छ बनाने में मदद मिलेगी।

**सतर्कता को अपनाकर जागरूकता को फैलाना है,  
भारत को भ्रष्टाचार से मुक्त बनाना है....।**

**केन्द्रीय सतर्कता आयोग का गठन:** केन्द्रीय सतर्कता आयोग को भ्रष्टाचार से लड़ने और लोक प्रशासन में ईमानदारी सुनिश्चित करने के लिए केन्द्रीय सतर्कता आयोग आधिनियम 2003 के अंतर्गत वेश में लाया गया। यह केन्द्र सरकार और संगठनों में विभिन्न प्राधिकरणों को हालाह देने के लिए शुरू किया गया है इसके अतिरिक्त और पहुँच गतिविधियों के साथ पारदर्शिता जवाबदेही और भ्रष्टाचार मुक्त शासन प्राप्त करने की नीति को प्रति आम आदमी विशेषकर युवाओं में जागरूकता पैदा करने का प्रयास करता है।

**"हम सबने यह ठाना है,  
देश को स्वच्छ बनाना है।"**

-सतर्कता जागरूकता सप्ताह के दौरान लीजाने वाली प्रतिज्ञाएँ : सतर्कता जागरूकता सप्ताह के समय व्यक्तिगत और संस्था के रूप में प्रतिज्ञा ली जाती है जैसे कि सतक और प्रतिबद्ध रहना, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में खुद को शामिल करना, जीवन के सभी क्षेत्रों में कानून का पालन करना, न रिश्वत लेना और न ही रिश्वत देना, ईमानदार और पारदर्शी रहना आदि अनेक प्रतिज्ञाएँ ली जाती हैं।

**" स्वच्छता का प्रण करें,  
हर स्थान को स्वच्छ करें।"**

**निष्कर्ष:** सतर्कता जागरूकता सप्ताह के माध्यम से जागरूकता और सतर्कता फैलाने के प्रयासों में एक नियम जैसी ऊर्जा आ जाती है अतः हम सबको मिलकर भविष्य में भ्रष्टाचार का विरोध करने की शपथ लेते हुए। सतर्कता जागरूकता सप्ताह के उद्देश्यों को पूर्ण करने में अपना सहयोग देना चाहिए तथा दूसरी को भी इसी रास्ते पर कार्य करने के लिए प्रेरित करना चाहिए।



विद्युत उत्पादन हमारी कटिबद्धता...  
समाज का विकास हमारी प्रतिबद्धता...




जलविद्युत और उससे  
आगे..

विविधीकरण के  
माध्यम से ऊर्जा पारगमन अपनाना



टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड  
**THDC INDIA LIMITED**  
(अनुसूची 'ए' , मिनी रत्न , पीएसयू )  
(Schedule 'A', Mini Ratna PSU)



टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड  
THDC INDIA LIMITED

Ganga Bhawan, Pragtipuram, By-Pass Road, Rishikesh-249201- Uttarakhand)

(Schedule-A Mini Ratna, Government PSU)

(इस पत्रिका में प्रकाशित लेखों/रचनाओं में व्यक्त किये गये विचार लेखकों के अपने हैं,  
और उनसे टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड प्रबंधन का सहमत होना आवश्यक नहीं है।)